

**Date: 28th July 2023** 

To, Listing Operations, **BSE Limited**, P.J.Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.

Scrip Code : 512379 Scrip ID : CRESSAN

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.

As mentioned in above cited subject, enclose herewith the newspaper advertisement published on July 28, 2023 in the following newspapers:

- 1) English Newspaper (Having Nationwide circulation)
- 2) Hindi Newspaper (Having Nationwide circulation)
- 3) Marathi Newspaper (Having Regional circulation)

Kindly take the above information on your records.

Thanking You,

#### For Cressanda Solutions Limited

NIKHIL Digitally signed by NIKHIL TUKARAM DEVARDEKAR DEVARDEKAR DEVARDEKAR 12:16:52 +05'30'

Nikhil Tukaram Devardekar Director DIN: 10087141

CIN: L51900MH1985PLC037036

26

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
 Non Toll Free. 022-67483333;

Fax No: 022-67483402;
 Website: www.unionmf.com;
 Email: investorcare@unionmf.com



#### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai

**Authorised Signatory** 

Date: July 27, 2023 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from \*Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	Applicati	ions		T			Rejection	1			
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries	Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation		Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Paticulars of Reje- ction	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0 0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications

considered for Allotment. Basis of Allotment:

Category	Applica recei	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and Allo	Equity Shares A otted against Rig titlements (A)		and A	quity Shares Acc Allotted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
Category	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I. New Delhi - 110020, India

REGISTRAR TO THE ISSUE

Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anui Rana

Cressanda

CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

(Company Secretary and Compliance Officer)

E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

**ISSUER COMPANY** 

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

Date: 27.07.2023 The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

ARVIND LIMITED			
ACUROD			
CIN - L17119GJ1931PLC000093			
NARODA ROAD, AHMEDABAD – 380 025			
A MEMBER OF LALBHAI GROUP			
Phone No. 079-68268000-8108-8109			
Website: www.arvind.com : Email: investor@arvind.in			
STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023	•	res except per	-
Sr. Particulars	Quarte	r Ended	Year Ended
No.	30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Audited
1 Total Income from Operations	1865.13	2360.57	8427.00
2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	90.90	117.50	423.46
3 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	91.94	117.50	482.22
4 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	69.70	101.62	413.17
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	77.80	57.29	399.59
6 Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share)	261.50	260.84	261.50
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-		3084.13
8 Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (Not Annualised)  Basic : (₹)	2.52	3.78	15.51
Diluted: (₹)	2.52	3.76	
Standalone Information:			
Particulars	Quarte	r Ended	Year Ended
Tarticulars	30.06.2023	30.06.2022	20
	Unaudited	Unaudited	Audited
		-5	
Revenue from continuing Operations	1689.27	2174.78	7722.69
Profit/(Loss) before Tax from continuing Operations	82.20	200.40	414.18
Profit/(Loss) after Tax from continuing Operations	64.05	181.87	351.95
Profit/(Loss) after Tax from discontinued Operations		(6.04)	(6.04)
Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)	8.41	(44.45)	(14.66)
Total Comprehensive Income/(Loss) after tax	72.46	131.38	331.25
¹Notes:			
1. The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of D		-	•
2. The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not l results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com).	oeen published. Ho	wever, the stanc	Jalone financiai
3. The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges and the filed f	egulation 33 of the	Securities and F	vchange Board
of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June	-		-
Fychanges, www. heindia.com, www. negindia.com and on the company's website www.arvind.com	30, 2020 10 010	10 011 0110 110000	.5 01 1.10 512 2.1

Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com **For Arvind Limited** Punit S. Lalbhai



#### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Place: AHMEDABAD

Date: July 27, 2023

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP-Sanjiv Goenka Group Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346 RP-Sanjiv Goenka Group Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

ш,				- 36			
					(Rs in Lai	khs except as otherw	ise stated)
			Standalone	2		Consolidated	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax					(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax	9				(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes			-		3	
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)		172			(0.16)	
15.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

Note: The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the guarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023. ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to

be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022. The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata. Date: 27 July, 2023 On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680



### Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

**Authorised Signatory** 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager:

Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability. Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

### Cressanda

## **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 Contact Person: Ms. Priva Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS' ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	3	ASBA	Applicati	ions					Rejection			- 8	2
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	7,555.55	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

**Basis of Allotment:** 

Category	Applica recei	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and Allo	Equity Shares A otted against Ri titlements (A)		and A	quity Shares Act Allotted against I Rights applied			ts Shares Accept nd Allotted (A41)	ed
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
		100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833 100		2,46,49,206 24,64,92,060		

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I.

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demand

Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED** No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com

Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

**ISSUER COMPANY** 

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be,

was submitted by the ASBA Investors. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

ARVIND LIMITED Arvind CIN - L17119GJ1931PLC000093 NARODA ROAD, AHMEDABAD – 380 025 A MEMBER OF LALBHAI GROUP Phone No. 079-68268000-8108-8109 Website: www.arvind.com: Email: investor@arvind.in STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 [₹ in Crores except per share data] Quarter Ended No. 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Audited 1865.13 2360.57 8427.00 90.90 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary ite 117.50 423.46 91.94 117.50 482.22 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 69.70 101.62 413.17 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 77.80 57.29 399.59 260.84 261.50 Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share) 3084.13 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 2.52 15.51 Diluted : (₹) 2.52 3.76 15.49 Standalone Information: Particulars 4 8 1 Year Ended 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 Unaudited Unaudited Audited 1689.27 2174.78 7722.69 200.40 414.18 181.87 351.95 (6.04)(6.04)Profit/(Loss) after Tax from discontinued Operation 8.41 (44.45)(14.66)Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax) 331.25 The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023.

The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD **For Arvind Limited** Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai **Vice Chairman and Executive Director** 



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346

					(Rs in Lak	hs except as otherwi	se stated)
			Standalone		6 83	Consolidated	9
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax					(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax					(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes			•	-	3	
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3	1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)		310			(0.16)	
15.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share. Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively

referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023 On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680

**BENGALURU** 



financialexp.ep. . in

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201 Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333;
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

**Authorised Signatory** 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Cressanda

### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as 'Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbal. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

#### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	Applicati	ons					Rejection	1			
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Racie of Allotment

Category	Applica recei		and Allo	Equity Shares A atted against Rig titlements (A)	CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA	and A	quity Shares Aco Motted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1.954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. REGISTRAR TO THE ISSUE **ISSUER COMPANY** 

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I,

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com

SEBI Registration No: INR000003241

Contact Person: Mr. Anuj Rana

OF THE COMPANY.

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

financialem.epan.in

CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

Cressanda

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS


For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities

Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock

Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD **For Arvind Limited** Punit S. Lalbhai Date: July 27, 2023 Vice Chairman and Executive Director



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

Tel: 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

RP-Sanjiv Goenka Group

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

				_	(Rs in Lak	hs except as otherw	ise stated)
			Standalone			Consolidated	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax					(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax					(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes					3	•
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)			*		(0.16)	
15. No.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2)  Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

> On behalf of the Board Vikram Mehra

Managing Director DIN: 03556680

Chandigarh

www.strategyadvertising.co.in

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023



financialexpress.com

#### Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai

Date: July 27, 2023 **Authorised Signatory** 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

### Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as 'Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4.950/- LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	8	ASBA	<b>Applicat</b>	ions					Rejection	1		- 3	1
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries 1Not	1,000,000	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

**Basis of Allotment:** 

Category	Applica recei	United States	and Allo	Equity Shares A otted against Ri titlements (A)	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and A	quity Shares Ac Allotted against I Rights applied			ts Shares Accept nd Allotted (A41)	ted
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

REGISTRAR TO THE ISSUE

D 153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I. New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

Website: www.skylinerta.com

E-mail: ipo@skylinerta.com

SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED** No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

**ISSUER COMPANY** 

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demand

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.


> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Ms. Priya Pritesh Agarwal Date: 27.07.2023 Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced,

pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023. The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD Date: July 27, 2023

**For Arvind Limited** Punit S. Lalbhai **Vice Chairman and Executive Director** 



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346 Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

Consolidated Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Particulars 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 74,849 19,842 Total Income from continuing operations 21,812 19,461 22,094 79,025 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 24,318 6.746 24,808 5,389 6,316 5,827 and/or Extraordinary items) 5,389 6,316 24,318 5,827 6,746 24,808 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,931 4.706 18,048 4,361 18,505 Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations 5,115 Profit/(Loss) from discontinued operation before tax (318)Profit/(Loss) from discontinued operation after tax (317)3,931 4.706 18,048 4,361 4,798 18,505 Profit for the period (4+6) 3,949 2.998 18,054 (2,098)183 Total other comprehensive income from continuing operations 3 Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes 2,998 4,336 Total Comprehensive Income for the period (8+9) 3,949 18,054 2,703 18,688 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2) 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 12. 1,20,220\* 1,21,193\* Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.66 Basic and diluted (Rs.) 2.04 2.44 9.37 2.27 9.63 Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.) (0.16)Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.) 9.37 2.27 2.50 2.04 2.44

Note: The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023

On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680

CHENNAI/KOCHI



financialexp.ep. . in

**FINANCIAL EXPRESS** 

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Cressanda

### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as

Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 Contact Person: Ms. Priva Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	E .	ASBA	Applicati	ions					Rejection	1		- 8	
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

**Basis of Allotment:** 

Category	Applica receiv	201 17 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	and Allo	Equity Shares Ac otted against Rig titlements (A)		and A	quity Shares Ac Motted against Rights applied		10.00	ts Shares Accept nd Allotted (A41)	ed
03.000000000000000000000000000000000000	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I.

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241

Contact Person: Mr. Anui Rana

financialexp.epapr.in

credit etc.

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demail Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating

**ISSUER COMPANY** 

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be was submitted by the ASBA Investors.


THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer Date: 27.07.2023

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com) The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com Place: AHMEDABAD For Arvind Limited Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited

Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

					(Rs in Lak	dis except as otherw	se stated)
- 8			Standalone		5 70	Consolidated	0
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax		j			(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax			*		(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes		5 <b>8</b> 2	*		3	•
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)		3			(0.16)	٠
15.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

1. The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the guarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023

Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyadvertising.co.in

On behalf of the Board



Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503. 5th Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

 Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
 Non Toll Free. 022-67483333 Fax No: 022-67483402;
 Website: www.unionmf.com;
 Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai

Date: July 27, 2023

**Authorised Signatory** 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

### Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priva Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	8	ASBA	Applicati	ions					Rejection	1		- 8	1
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries 1Not	1/2/2015-5	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

**Basis of Allotment:** 

Category	Applica recei	1.0000000000000000000000000000000000000	and Allo	Equity Shares A otted against Ri titlements (A)		and A	quity Shares Ac Allotted against I Rights applied	ts Shares Accept nd Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ("Bankers to the Issue") to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

OF THE COMPANY.

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

REGISTRAR TO THE ISSUE

D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED** No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

(Company Secretary and Compliance Officer)

**ISSUER COMPANY** 

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demand

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be,


was submitted by the ASBA Investors. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD **For Arvind Limited** Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai **Vice Chairman and Executive Director** 



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346 Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

- }					(Rs in Lak	hs except as otherw	ise stated)
			Standalone	3	6 88	Consolidated	9
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 202 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,02
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,80
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,50
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax					(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax					(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,50
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	18
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes			•	•	3	
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,68
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,92
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3 3	1,20,220*		45 8	1,21,193
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)					(0.16)	
15. Not	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.6

The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023 On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680

**HYDERABAD** 



financialexp.ep. . in

331.25

#### Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

**Investment Manager for Union Mutual Fund** 

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

7, 2023 Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

# CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

Corporate Identification Number: L51900MH1985PLC03703

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

ASBA Applications

	8	ASBA	Applicati	ions					Rejection	l e		8	2
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17<sup>th</sup> July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17<sup>th</sup> July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Category	Applica recei	United States and Stat	and Allo	Equity Shares A otted against Ri titlements (A)		and A	quity Shares Ac Allotted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)				
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%		
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92		
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08		
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100		

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

OF THE COMPANY.

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

REGISTRAR TO THE ISSUE

D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase – I, New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point,
Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676

E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com
Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

Contact Person: Mr. Anuj Rana (Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/dema

**ISSUER COMPANY** 

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be,

was submitted by the ASBA investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS

For Cressanda Solutions Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-

Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section \*Risk Factors' beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

ARVIND LIMITED Arvind CIN - L17119GJ1931PLC000093 NARODA ROAD, AHMEDABAD – 380 025 A MEMBER OF LALBHAI GROUP Phone No. 079-68268000-8108-8109 Website: www.arvind.com: Email: investor@arvind.in STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 [₹ in Crores except per share data] Quarter Ended No. 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Audited 1865.13 2360.57 8427.00 90.90 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary ite 117.50 423.46 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 91.94 117.50 482.22 69.70 101.62 413.17 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 77.80 57.29 399.59 260.84 261.50 Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share) 3084.13 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 2.52 15.51 Diluted : (₹) 2.52 3.76 15.49 Standalone Information: Particulars 4 8 1 Year Ended 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 Unaudited Unaudited Audited 1689.27 2174.78 7722.69 200.40 414.18 181.87 351.95 Profit/(Loss) after Tax from discontinued Operation (6.04)(6.04)8.41 (44.45)(14.66)Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)

The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com).
 The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com , www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com.
 Place: AHMEDABAD
 Punit S. Lalbhai
 Vice Chairman and Executive Director

The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023.



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Authorized Signatory

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RP-Sanjiv Goenka Saregama India Limited

Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

Consolidated Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Particulars 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 19,842 Total Income from continuing operations 21,812 19,461 74,849 22,094 79,025 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 24,318 6.746 24,808 5,389 6,316 5,827 and/or Extraordinary items) 5,389 6,316 24,318 5,827 6,746 24,808 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,931 4.706 18,048 4,361 18,505 Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations 5,115 Profit/(Loss) from discontinued operation before tax (318)Profit/(Loss) from discontinued operation after tax (317)3,931 4.706 18,048 4,361 4,798 18,505 Profit for the period (4+6) 3,949 2.998 18,054 (2,098)183 Total other comprehensive income from continuing operations Total other comprehensive income from discontinued operations 3 after taxes 10. Total Comprehensive Income for the period (8+9) 2,998 3,949 18,054 4,336 2,703 18,688 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2) 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 12. 1,21,193\* Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 1,20,220\* Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.66 Basic and diluted (Rs.) 2.04 2.44 9.37 2.27 9.63 Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.) (0.16)Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 9.37 2.50 Basic and diluted (Rs.) 2.04 2.44 2.27

 Note:
 The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.saregama.com).

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

3. Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ("the resulting company"). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date is a 1 April 2022.

be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023.

Place : Kolkata, Date : 27 July, 2023 On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyadvertising.co.

CHENNAI/KOCHI



financialexp.ep. .in

**FINANCIAL EXPRESS** 

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201 Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333;
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Cressanda

### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as 'Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	Applicati	ions					Rejection	1			
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Renounce.	Applica receiv	A0400.000.6A0.A0	and Allo	Equity Shares Ad tited against Rig titlements (A)	COLUMN TOWNS OF STREET	and A	quity Shares Acc llotted against Rights applied		ALLOS DOMOROS MAN	hts Shares Accepted and Allotted (A41)		
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. REGISTRAR TO THE ISSUE **ISSUER COMPANY** 

Skyline

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I,

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com

Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda

CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priva Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

Arvind Phone No. 079-68268000-8108-8109 Website: www.arvind.com: Email: investor@arvind.in STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 [₹ in Crores except per share data] Quarter Ended **Particulars**  Year Ended 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Audited 1865.13 2360.57 8427.00 90.90 117.50 423.46 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 117.50 91.94 482.22 69.70 101.62 413.17 77.80 57.29 399.59 nsive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 260.84 261.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 3084.13 Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (Not Annualised 2.52 15.51 Diluted: (₹) 2.52 3.76 15.49 Particulars 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited 1689.27 2174.78 7722.69 82.20 200.40 414.18 64.05 181.87 351.95 (6.04)(44.45)(14.66) 72.46 131.38 331.25 The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023.

results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD **For Arvind Limited** Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai

The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

Tel: 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP - Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

					(Rs in Lak	hs except as otherw	se stated)
Ü			Standalone		399	Consolidated	541
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax				-	(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax				2	(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes		-	-	3	3	
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)		_			(0.16)	
15. No.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2)  Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

1. The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the guarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023

Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyadvertising.co.in

On behalf of the Board



financialexp.epap.in

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201 Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333;
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Cressanda

### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as 'Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

The state of the s	35.50	ASBA	Applicat	ions					Rejection	h			
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica-	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Rasis of Allotment

Category	Applica receiv	70000000A070	and Allo	quity Shares A tted against Rig titlements (A)	Charles and Charle	and A	quity Shares Act Allotted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1,954	100	33.89,373	3,38,93,730	100	2.12.59.833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. REGISTRAR TO THE ISSUE **ISSUER COMPANY** 

Skyline

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

financialexp.epap.in

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I,

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com

Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda

CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demail credit etc. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priva Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

ARVIND LIMITED Arvind CIN - L17119GJ1931PLC000093 NARODA ROAD, AHMEDABAD – 380 025 A MEMBER OF LALBHAI GROUP Phone No. 079-68268000-8108-8109 Website: www.arvind.com: Email: investor@arvind.in STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 [₹ in Crores except per share data] Quarter Ended **Particulars**  Year Ended 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Audited 1865.13 2360.57 8427.00 90.90 117.50 423.46 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 117.50 91.94 482.22 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary 69.70 101.62 413.17 77.80 57.29 399.59 ensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 260.84 261.50 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous yea 3084.13 Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (Not Annualised 2.52 15.51 Diluted: (₹) 2.52 3.76 15.49 Particulars 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited 1689.27 2174.78 7722.69 82.20 200.40 414.18 64.05 181.87 351.95 (6.04)(44.45)(14.66) 72.46 131.38 331.25

The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023. The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com). The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com. Place: AHMEDABAD For Arvind Limited Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai **Vice Chairman and Executive Director** 



#### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

Tel: 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited

Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346
Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

(Rs in Lakhs except as otherwise stated) Consolidated Quarter Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Quarter Ended 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2023 Particulars 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2022 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total Income from continuing operations 19,461 74,849 22,094 19,842 79,025 21,812 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 5,389 6,316 24,318 5,827 6,746 24,808 and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after 5,389 6,316 24,318 5,827 6,746 24,808 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations 3,931 4,706 18,048 4,361 5,115 18,505 Profit/(Loss) from discontinued operation before tax (318)Profit/(Loss) from discontinued operation after tax (317)4,361 18,505 Profit for the period (4+6) 3,931 4,706 18,048 4,798 3,949 2.998 (2,098)183 Total other comprehensive income from continuing operations 18,054 Total other comprehensive income from discontinued operations 3 2.998 10. Total Comprehensive Income for the period (8+9) 3,949 18,054 4,336 2,703 18,688 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2) 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 1,928 Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 1,21,193\* 1,20,220\* Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.04 2.44 9.37 2.27 2.66 9.63 Basic and diluted (Rs.) Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.) (0.16)Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.50 Basic and diluted (Rs.) 2.04 9.37 2.27 9.63

The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the guarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.

Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata. Date: 27 July, 2023 On behalf of the Board Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyactvertising.co.in



**FINANCIAL EXPRESS** 

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

- Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
   Non Toll Free. 022-67483333;
- Fax No: 022-67483402;
   Website: www.unionmf.com;
   Email: investorcare@unionmf.com



#### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: July 27, 2023

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com.

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as 'Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 Contact Person: Ms. Priva Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS' ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	8	ASBA	Applicati	ions					Rejection	1		- 8		
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	********	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)	
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954	
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517	
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00	

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

**Basis of Allotment:** 

Category	Applications received		Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)			and A	quity Shares Ac Motted against Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
2/////#imain	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

OF THE COMPANY.

Place: Mumbai

financialexp.epapr.in

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I.

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110020. India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anui Rana

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point,

Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

(Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

**ISSUER COMPANY** 

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be

was submitted by the ASBA Investors. THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS


> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priya Pritesh Agarwal

Date: 27.07.2023 Company Secretary and Compliance Officer The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors"

beginning on page 21 of the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities

Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023. The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com)

The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended June 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com Place: AHMEDABAD For Arvind Limited Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai



### Franklin Templeton Mutual Fund

Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### RP-Sanjiv Goenka Group Saregama India Limited Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028

web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346 Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

					(Rs in Lai	ths except as otherw	ise stated)
- 0			Standalone	2	5 8	Consolidated	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2023 (Audited)	Quarter Ended 31 March 2022 (Audited)	Year Ended 31 March 2023 (Audited)
1.	Total Income from continuing operations	21,812	19,461	74,849	22,094	19,842	79,025
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,389	6,316	24,318	5,827	6,746	24,808
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	3,931	4,706	18,048	4,361	5,115	18,505
5.	Profit/(Loss) from discontinued operation before tax					(318)	
6.	Profit/(Loss) from discontinued operation after tax					(317)	
7.	Profit for the period (4+6)	3,931	4,706	18,048	4,361	4,798	18,505
8.	Total other comprehensive income from continuing operations after taxes	3,949	2,998	18,054	(25)	(2,098)	183
9.	Total other comprehensive income from discontinued operations after taxes			-	-	3	
10.	Total Comprehensive Income for the period (8+9)	3,949	2,998	18,054	4,336	2,703	18,688
11.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2)	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928
12.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3	1,20,220*			1,21,193*
13.	Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.66	9.63
14.	Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)		2			(0.16)	
15.	Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.)	2.04	2.44	9.37	2.27	2.50	9.63

The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs.10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re.1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.


Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ('the resulting company'). Consequently, figures for the guarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022.

The above audited revised standalone/consolidated financial results for the guarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata, Date: 27 July, 2023

Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyadvertising.co.in

On behalf of the Board



2.52

2.52

Diluted : (₹)

3084.13

15.51

15.49

3.78

3.76

26

Union Mutual Fund

Union Asset Management Company Private Limited

Investment Manager for Union Mutual Fund

Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201

Registered Office: Unit 503, 5" Floor, Leela Business Park,

Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059

Toll Free No. 1800 2002 268/1800 5722 268;
 Non Toll Free. 022-67483333;

Fax No: 022-67483402;
 Website: www.unionmf.com;
 Email: investorcare@unionmf.com



No.

#### NOTICE TO ALL INVESTORS / UNITHOLDERS

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Union Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated May 19, 2023, Union Asset Management Company Private Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Scheme wise Annual Report of all the Schemes of Union Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2023 on its website viz www.unionmf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com. The Investors/Unitholders can view and download the Scheme wise Annual Report from the website of the AMC and AMFI.

Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Scheme wise Annual Report by writing to the AMC at the email address investorcare@unionmf.com or calling the AMC on the toll-free number 18002002268 / 18005722268 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of Union Mutual Fund.

> For Union Asset Management Company Private Limited (Investment Manager for Union Mutual Fund)

Place: Mumbai

Date: July 27, 2023

Authorised Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Statutory Details: Constitution: Union Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: Union Bank of India and Dai-ichi Life Holdings, Inc.; Trustee: Union Trustee Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198198], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; Investment Manager: Union Asset Management Company Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65923MH2009PTC198201], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/ Customer Service Centers/ distributors as well as from our website www.unionmf.com

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

## **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2.46.49.206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4.950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	<b>Applicat</b>	ions		0.00		- 0	Rejection	1	05 65		
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment

### **Basis of Allotment:**

Category	Applica recei	2002/01/02/03	Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)			and A	quity Shares Acc Motted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ("Bankers to the Issue") to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26<sup>n</sup> July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I,

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241

Contact Person: Mr. Anuj Rana

**ISSUER COMPANY** Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priva Pritesh Agarwal

(Company Secretary and Compliance Officer)

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demand credit etc. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating

to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Ms. Priya Pritesh Agarwal Date: 27.07.2023 Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.



financialexp.epapr.in



Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) - (Not Annualised)

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 [₹ in Crores except per share data] Quarter Ended 30.06.2023 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Audited 2360.57 8427.00 1865.13 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 90.90 117.50 423.46 91.94 117.50 482.22 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items 413.17 69.70 101.62 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 57.29 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 77.80 399.59 260.84 Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- per share) 261.50 261.50

Particulars **Ouarter Ended** 30.06.2023 | 30.06.2022 31.03.2023 Unaudited Audited Unaudited 2174.78 1689.27 7722.69 Profit/(Loss) before Tax from continuing Operation 82.20 200.40 414.18 64.05 181.87 351.95 (6.04)(6.04)(44.45)(14.66)72.46 131.38 331.25

The above consolidated audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 27, 2023. The company has intimated the Stock Exchange to publish only Consolidated Financial results and hence, the standalone financial results have not been published. However, the standalone financial

results for the first quarter ended June 30, 2023 are available on Company's website (www.arvind.com) The above is an extract of the detailed format of Financial results for the first quarter ended tune 30, 2023, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Roard of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the first quarter ended June 30, 2023 is available on the websites of the Stock

Exchanges, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.arvind.com Place: AHMEDABAD **For Arvind Limited** Date: July 27, 2023 Punit S. Lalbhai **Vice Chairman and Executive Director** 



Franklin Templeton Mutual Fund Registered Office: One International Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

#### NOTICE

Investors may note that pursuant to Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with para 5.4.1 of SEBI Master Circular on Mutual Funds dated May 19, 2023, a soft copy of the annual report of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund and abridged summary thereof for the period ended March 31, 2023 has been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (https://www.amfiindia.com).

The scheme annual reports or abridged summary thereof shall also be emailed to those unitholders, whose email addresses are registered with the Mutual Fund. Unitholders can submit a request for a physical or electronic copy of the scheme wise annual report or abridged summary thereof via following modes:

**Tel:** 1-800-425 4255 or 1-800 -258- 4255 from 8:00 a.m. to 9:00 p.m., Monday to Saturday.

**E-mail:** service@franklintempleton.com

Written request (letter) at Franklin Templeton Branch Offices (Investor Service Centres)

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.

(Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Sd/-

Group

**Authorized Signatory** 

Date: July 27, 2023

RP-Sanjiv Goenka

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### Saregama India Limited

Registered Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700 028 web: www.saregama.com, E-mail id: co.sec@saregama.com, Phone No.: 033-2551-2984, CIN: L22213WB1946PLC014346 Extract of Revised Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March, 2023

(Rs in Lakhs except as otherwise stated) Consolidated Standalone Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Quarter Ended Year Ended Sr. Particulars 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 31 March 2023 31 March 2022 31 March 2023 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 19,842 Total Income from continuing operations 21,812 19,461 74,849 22,094 79,025 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional 5,389 6,316 24,318 24,808 5,827 6.746 and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after 5,389 6,316 24,318 5,827 6.746 24,808 Exceptional and/or Extraordinary items) 3,931 4,706 18,048 4,361 5,115 18,505 Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations Profit/(Loss) from discontinued operation before tax (318)Profit/(Loss) from discontinued operation after tax (317)4,798 18,505 Profit for the period (4+6) 3,931 4,706 18,048 4,361 3,949 2.998 18,054 (2.098)183 Total other comprehensive income from continuing operations Total other comprehensive income from discontinued operations 3 after taxes 3,949 2,998 18,054 4,336 2.703 18,688 Total Comprehensive Income for the period (8+9) 11. Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each) (Refer Note 2) 1,928 1,928 1,928 1,928 1.928 1,928 Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 1,20,220 1,21,193\* Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share from continuing operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.66 Basic and diluted (Rs.) 2.04 2.44 9.37 2.27 9.63 Earnings Per Share from discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) Basic and diluted (Rs.) (0.16)Earnings Per Share from continuing and discontinued operations (of Re. 1/- each) (not annualised) (Refer Note 2) 2.44 9.37 2.27 2.50 9.63 Basic and diluted (Rs.) 2.04

Note: The above is an extract of the detailed format of Revised Financial Results for the guarter and year ended on 31 March, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Revised Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2023 are available on stock exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website

Pursuant to the Special Resolution passed by the Shareholders of the Company by way of Postal Ballot through electronic means on 31 March 2022, the Company has sub-divided its 1(one) equity share of face value of Rs. 10/- fully paid up, into 10 (Ten) equity shares of face value Re. 1/- each fully paid-up, effective from 28 April 2022. Hence, shares have now been adjusted on account of sub-division of share done by the Company. This has also been considered for calculating weighted average number of equity shares for all periods presented, as per Ind AS 33- Earnings Per Share.


Pursuant to the Scheme of Arrangement (the "Scheme") for demerger of its E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets (collectively referred to as "Demerged undertaking") from the Group, duly sanctioned by the National Company Law Tribunal (NCLT), Kolkata Bench vide Order dated 22 June 2023 ("Order"), with effect from the Appointed Date i.e., 1 April 2022, the E-commerce Distribution Business along with identified non-core assets ("the demerged undertaking") of the Group ("Demerged Company") stands transferred into the "Digidrive Distributors Limited" ("the resulting company"). Consequently, figures for the quarter ended 31 March 2022, 31 March 2023 and year ended 31 March 2023 have been reclassified to represent the figures of the remaining businesses of the Group. Pursuant to Scheme becoming effective two wholly-owned subsidiaries of the Group, Open Media Network Private Limited and Digidrive Distributors Limited ceases to

be subsidiaries from the Appointed Date i.e. 1 April 2022. The above audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in their meeting held on 27 July, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on even date. These results have been subjected to "Audit" by the Statutory Auditors of the Company who have issued an unqualified audit report on the audited revised standalone/consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March, 2023.

Place: Kolkata. Date: 27 July, 2023

Vikram Mehra Managing Director DIN: 03556680 www.strategyadvertising.co.in

On behalf of the Board



### जेट एअखेज के 169 कर्मचारियों को सभी सेवा लाभ देने का आदेश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 27 जुलाई।

उच्चतम न्यायालय ने अब बंद हो चुकी जेट एयरवेज के 169 कर्मचारियों को पूर्व वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ का यह आदेश दिवालिया हो चुकी जेट एअरवेज के लिए करारा झटका है। पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय और औद्योगिक पंचाट के आदेशों को उलट दिया।

पीठ ने कहा कि मजदरों के लिए बने बंबई श्रमिक कानूनों को सिर्फ यह कहकर लागू करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कर्मचारी संविदा कर्मचारी थे। पीठ ने कहा कि जो भी कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में लगातार 240 दिन काम कर लेता है, वह स्थाई किए जाने का पात्र हो जाता है। इस अधिकार को नकारने वाली कोई भी संविदा या समझौता स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह फैसला भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ की अपील पर आया है। जिसने दावा किया था कि एअरलाइन में 240 दिन तक निरंतर काम कर चुके कर्मचारियों को भी अस्थाई माना।

Exchange Board of India ("SEBI")

# घाना की संसद में मृत्युदंड समाप्त करने के लिए मतदान

आखिरी बार 1993 में दी गई थी फांसी

अक्करा (घाना), २७ जुलाई (एपी)।


घाना की संसद ने राजद्रोह को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को कानूनी रूप से खत्म करने के पक्ष में मतदान किया है। इस मतदान से घाना में पिछले तीन दशकों से फांसी की सजा पर स्वतः रोक को औपचारिक रूप मिल गया है।

घाना में किसी अपराध के लिए आखिरी बार 1993 में फांसी दी गई थी। मंगलवार को संसद सत्र के दौरान कानन निमार्ताओं ने अपराध से जुड़े कानून में प्रस्तावित संशोधन का मतदान के जरिये समर्थन किया। प्रस्तावित विधेयक को अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानुनी मान्यता मिल जाएगी। संसद की कार्यवाही का राष्ट्रीय टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। कानून में बदलाव के बाद छह महिलाओं समेत उन 176 कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा जिन्हें विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की

सजा सुनाई गई थी। घाना के कानूनी संसाधन केंद्र के कार्यक्रम अधिकारी इनाक जैंगरे ने कहा कि घाना हर किसी के संवैधानिक और मौलिक मानवाधिकार को कायम रख रहा है। किसी भी इंसान या संस्था को दूसरे की जान लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मृत्युदंड का विरोध करने वाले समृह 'वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी' के अनुसार, 26 अफ्रीकी देशों ने मौत की सजा को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जबकि घाना और 14 अन्य देशों में यह प्रथा कानूनी रूप से लागू थी लेकिन 2022 तक किसी को फांसी नहीं दी गई। घाना में आखिरी बार 1993 में फांसी दी गई थी।

अक्करा के वकील फ्रांसिस गैस ने कहा कि सामान्य तौर पर आम जनता ने स्वीकार कर लिया है कि (मृत्युदंड) उपयोगी नहीं हो सकता है। न्याय प्रक्रिया में गलतियां होना सामान्य बात है और पुलिस जांच में भी गलतियां होती है इसलिए इस तरह की प्रथा पर कायम नहीं रहा जा सकता।

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

### PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2.46.49.206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	Applicati	ions					Rejection	6				
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	PAN Mis- match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)	
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954	
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517	
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00	

Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Category	Applica receiv	100000000000000000000000000000000000000	and Allo	Equity Shares A otted against Rig titlements (A)	2147 - W	and A	quity Shares Acc Allotted against I Rights applied	Sanda Sa	Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%	
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92	
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08	
Total	1.954	100	33.89.373	3.38,93,730	100	2,12,59,833	2.12,59,833	100	2.46,49,206	24,64,92,060	100	

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Skyline SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhia Industrial Area, Phase - I,

New Delhi - 110020, India

Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point,

Mumbai - 400021, Maharashtra, India.

Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

(Company Secretary and Compliance Officer)

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Ms. Priya Pritesh Agarwal

Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

उत्तरी सागर में 3,000 कार लेकर जा रहा था जहाज, 20 घायल

# मालवाहक जहाज में भीषण आग लगी, भारतीय की मौत

लदन, 27 जुलाई (भाषा)।

नीदरलैंड तट के पास उत्तरी सागर में लगभग 3,000 कार लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई. जिससे चालक दल के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई और 20 अन्य घायल गए। नीदरलैंड के तटरक्षकों ने चेतावनी दी है कि यह आग बुझाने में लंबा समय लग सकता है।

पनामा में पंजीकृत 199 मीटर लंबे जहाज 'फ्रीमेंटल हाईवे' पर आग मंगलवार की रात लगी, जो जर्मनी से मिस्र जा रहा था। आग लगने के बाद चालक दल के कई सदस्य जान बचाने के लिए पानी में कूद गए।

नीदरलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहाज में आग लगने के कारण एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। दुतावास ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि हम उत्तरी सागर में जहाज 'फ्रीमेंटल हाईवे' से जुड़ी घटना को लेकर बहुत दुखी हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चालक दल के कई सदस्य घायल गए। दूतावास ने कहा कि वह मृतक के परिवार के संपर्क में है और मृतक के शव को स्वदेश वापस भेजने के लिए सहायता कर रहा है।

दुतावास की ओर से किए गए एक ट्वीट में बताया गया है कि दूतावास, हादसे में घायल चालक दल के 20 अन्य सदस्यों के भी संपर्क में है। सभी सुरक्षित हैं और उनका इलाज चल



*पनामा* में पजीकृत 199 मीटर लंबे जहाज 'फ्रीमेंटल हाईवे' पर आग मंगलवार की रात लगी, जो जर्मनी से मिस्र जा रहा था। आग लगने के बाद चालक दल के कई सदस्य जान बचाने के लिए पानी में कूद गए।

*नीदरलैंड* स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि जहाज में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है और शव को स्वदेश वापस भेजने के लिए सहायता कर रहा है।

हेलिकाप्टरों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कुछ लोग जान बचाने के लिए पानी में कृद गए थे। नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रसारक एनओएस ने बताया कि आग संभवतः जहाज पर मौजूद 25 इलेक्ट्रिक कारों में से किसी एक के कारण लगी होगी। वहीं, एक तटरक्षक बल के सदस्य ने कहा कि आग लगने के लगभग रहा है। नीदरलैंड के अधिकारियों और शिपिंग 🛮 16 घंटे बाद भी अग्निशमन दल, उसे बुझाने 🏻 किया लेकिन आग तेजी से फैल गई। फिर कंपनी की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक प्रवक्ता ने कहा रोटेरदैम से आग बुझाने के विशेषज्ञों को जा रही है। तटरक्षक बल के एक प्रवक्ता ने कि यह सुनिश्चित करने में लंबा समय, शायद बुलाया गया लेकिन तब तक हालात नियंत्रण से बुधवार को सीएनएन को बताया कि चालक हफ्तों लग सकते हैं कि आग पूरी तरह बुझ गई दल के 23 सदस्यों को जहाज से बाहर है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दमकलकर्मियों निकालने के लिए बचाव नौकाओं और को जहाज पर भेजना खतरे से खाली नहीं है। गए जिन्हें आसपास के जहाजों ने बचा लिया।

प्रवक्ता एडविन ग्रामेमेन ने एनओएस को बताया कि आग बुझाने के लिए अगर जहाज में पानी भरा जाए तो वह अस्थिर हो सकता है और फिर उसे बचाना मुश्किल होगा क्योंकि वह डूब जाएगा। डच न्यूज समाचार चैनल की खबर के अनुसार, जहाज के चालक दल के 23 सदस्यों ने पहले तो खुद ही आग बुझाने का प्रयास बाहर हो चुके थे। चैनल की खबर में कहा गया है कि चालक दल के सात सदस्य पानी में कूद

### अमेरिका: दयनीय स्थिति में मिली हैदराबाद की महिला

हैदराबाद, 27 जुलाई (भाषा)।

'दीनहीन हालत' में मिली है।

जयशंकर को पत्र लिखकर अपनी बेटी को

वापस लाने में मदद का अनुरोध किया है।

कि उनकी बेटी सैयदा लुलु मिन्हाज जैदी महिला की मां ने विदेश मंत्री एस अगस्त 2021 में अमेरिका के डेट्रायट में ट्राइन युनिवर्सिटी से 'एमएस' की पढ़ाई करने गई

थी। जैदी की मां ने अपने पत्र में लिखा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता पिछले दो महीने से वह मेरे संपर्क में नहीं थी अमेरिका में 'एमएस' की पढ़ाई के लिए खलीकुर रहमान के ट्विटर पेज पर इस पत्र को और हाल में हैदराबाद के दो युवकों से मुझे गई तेलंगाना की एक महिला वहां बड़ी ही साझा किया गया है। इस पत्र में महिला ने कहा पता चला कि मेरी बेटी गहरे अवसाद में है और उसकी सारी चीजें चोरी हो गई हैं. जिसके कारण उसकी हालत दयनीय हो गई है और उसे शिकागो की सडकों पर देखा गया था।

उत्तर कोरिया के नेता किम ने

रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की

H

### हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

CIN: U74899DL1991PLC046774 पंजीकृत कार्यालयः ३४, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-११००५७ कॉपोरेट कार्यालयः ०९, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-११००५७ फ़ोनः ०११-४९४४४१५० | फैक्सः ०११-४९४४४१९७-९८ वेबसाइटः www.herofincorp.com | ईमेलःinvestors@herofincorp.com

32<sup>वी</sup> वार्षिक आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, कंपनी के सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों को दिनांक 1 जुलाई, 2023 को भेजे गए 32वीं वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम्**") के नोटिस के क्रम में, कंपनी के सदस्यों की 32वीं एजीएम बुलाई गई है, जो **बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को 03:00 बुजे** (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली है।

कंपनी के एसोसिएशन के संशोधित और पुनर्निर्मित लेखों को अपनाने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगने के कंपनी के प्रस्ताव के संबंध में, जैसा कि एजीएम के आइटम नंबर 4 के तहत बताया गया है, नोटिस को इसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसे उन सभी सदस्यों को और हितधारकों को जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है। इस शुद्धिपत्र को 1 जुलाई, 2023 के एजीएम की सूचना का अभिन्न अंग माना जाएगा

यहां ऊपर उल्लिखित परिवर्तनों को छोड़कर, ई-वोटिंग आदि से संबंधित प्रक्रियाओं, नोटस और निर्देशों सहित उपरोक्त एजीएम की सूचना में दिए गए अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। एजीएम की सूचना को इस शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस शुद्धिपत्र और एजीएम की सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.herofincorp.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी।

कते हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

दिनांक: 27 जुलाई 2023 स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/ शिवेंद्र सुमन प्रमुख-अनुपालन एवं कंपनी सचिव सियोल, 27 जुलाई (एपी)। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य

मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर चर्चा के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। सरकारी मीडिया ने गुरुवार को बताया कि देश 1950-53 के युद्धविराम की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है।

उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजंसी (केसीएनए) ने बताया कि किम और शोइगु की मुलाकात बुधवार को राजधानी प्योंगयांग में हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने ह्यराष्ट्रीय रक्षा तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को लेकर आपसी चिंता के मामलोंह्न पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि दोनों ने क्या चर्चा की।

# ICICI PRLDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

**Registered Office:** 12<sup>th</sup> Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goreggon (E), Mumbai - 400 063, Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund) Scheme wise Annual Report and Abridged Annual Report of the Schemes of the Fund

NOTICE is hereby given that the Scheme wise Annual Report and the Abridged Annual Report of the schemes of the Fund for the financial year ended March 31, 2023 have been hosted on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com, in accordance with Regulation 54 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Clause 5.4 of the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated May 19, 2023.

Investors may accordingly view/download the reports from the website of the AMC. Investors can also request for the physical copy of Annual Report or Abridged summary through any of the following modes:

- 1. Give a call at our Contact Centre on Toll Free number: 1800 222 999 and 1800 200 6666 between 8 am to 8 pm, Monday to Saturday and 9 am to 7 pm on Sunday
- 2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
- 3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centers, details of which are available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Date: July 27, 2023 No. 005/07/2023

Place: Mumbai

**Authorised Signatory** 

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### विपक्षी दल की रिपोर्टिंग करने के आरोप में पत्रकार को छह साल की जेल

तिल्लन (इस्टोनिया), 27 जुलाई (एपी)।

विपक्षी दलों के बारे में रिपोर्टिंग के आरोप में बेलारूस के एक जाने माने पत्रकार को छह साल की जेल की सजा सनाई गई है। विपक्षी दलों से संबंधित व्यक्तियों. स्वतंत्र पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकताओं के खिलाफ एक साल से जारी महिम में यह हालिया घटना है। पश्चिम बेलारूस में ग्रोडनो शहर में सनवाई के दौरान पैवेल माजिका (45) पर विपक्षी राजनीतिक दल की गतिविधियों की कवरेज के लिए 'चरमपंथी गतिविधि में संलिप्तता' का आरोप लगा है। माजिका पर 'बेलसैट टीवी' समेत समाचार आउटलेट के लिए काम करने का आरोप है। 'बेलसैट टीवी' के जरिए बेलारूस में प्रसारण होता है लेकिन उसका आधार पोलैंड में है। बेलारूस के अधिकारियों ने 'बेलसैट' को 'चरमपंथी' घोषित किया हुआ है। वकील यूलिया युरहिलविच

(42) को भी बेलारूस के राजनीतिक कैदियों, विशेष रूप से असंतुष्ट कलाकार एलेस पुश्किन के बारे में माजिका को जानकारी देने का आरोप में छह साल की सजा सुनाई गई थी।

www.readwhere.com

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के मामले में तथा पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड -आवेदक

-प्रतिवादी कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली कार्यालय के पते के स्थानांतरण के संदर्भ में 25.07.2023 को इस समाचार पत्र मे आम जनता के लिये सूचना प्रकाशित की गई थी। कृपया सही स्थानांतरित कार्यालय का पता इस प्रकार पढ़ें: ठाकर टावर, 1ला तल, 109, प्लॉट नं. 86, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुम्बई-400705, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

कृत्ते, पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 28.07.2023 पल्या वैंकटरामण रवि प्रसाद स्थानः दिल्ली निदेशक (DIN:01296821) 1ला तल. हरवंश भवन-1. डीडीए बिजनेस कॉम्प्लैक्स. नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दिल्ली



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जनकपुरी शाखा, नई दिल्ली

शाखा के लॉकर धारक निम्नलिखित लॉकर के निर्धारित किराये का भूगतान नहीं कर पाएं हैं। नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक के पास लॉकर किराए का भगतान न करने पर उक्त लॉकर को तोड कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सरक्षित है। तदनसार, इन सभी कार्रवाइयों से बचने के लिए नियत तारीख से पहले लॉकरधारक सबंन्धित शाखाओं में आवदेन कर बकाए का भगतान कर सकते हैं। अन्यथा सभी नियमों के साथ 30 अक्टूबर 2023 को लॉकर तोड़ कर खोला जाना प्रस्तावित है। लॉकर तोड़ कर खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा बकाया किराया एवं अन्य खर्ची इत्यादि की वसुली का कानुनी अधिकार बैंक के पास सरुक्षित होगा।

क.सं.	शाखा का नाम	लॉकर सं.	इस तारीख से देय है	नाम तथा पता
1	जनकपुरी शाखा	एस3 / 205		सुश्री टीना गुलाटी बी—32 टॉप फ्लोर गुजरावाला अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली—110018
				हस्ता./-,

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लि., जनकपुरी शाखा

कोटक महिद्रा बैक लिमिटेड कार्यालय : २७बीकेसी, सी–२७, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–४०००५१.

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिटत धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का, भूगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह-उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षित्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहां उसमें अर्थात् सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज लागतों एवं शल्कों हेत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं और उनके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियां, अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम	
पते/ऋण खाता संख्या/ऋण	US-ES
मैसर्स निरंकारी मसाला भण्डार, अपने	सं
प्राधिकृत व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद	नंब
गुप्ता के माध्यम से एवं श्री राजेंद्र	18
प्रसाद गुप्ता तथा श्रीमती मीना देवी,	18
सभी का पता : मकान नंबर— 10210,	18
ग्ली नंबर — 320, संजय कॉलोनी,	शा
सेक्टर — 23, फरीदाबाद, हरियाणा —	फ
121005,	দ্ল
ऋण खाता संख्या :	32
LNDEL00616-170000526,	
संस्वीकृत ऋण राशि : रु.	ब <b>्</b>
10,50,000 / — (रुपये दस लाख	बंध

दिनांकः 30.07.2023

स्थानः नई दिल्ली

किला नंबर किला नंबर 13/20, 13/21, 2 भौतिक अधिग्रहण 18/1/9, 8/1/10, 18/1/22, 18/1/23, 3. 28-08-2020 18 / 1 / 28, 18 / 1 / 29, 18 / 1 / 12, 18 / 1 / 13, 🛮 <sub>4.</sub> रु. 12,85,882 / — (रुपये 1). श्रीमती मीना देवी (संपत्ति सं. 2) पचास हजार मात्र)

8/2/1, 18/2/2, 18/2/6, 18/2/9 में बारह लाख पिचासी हजार <sub>ि</sub> हरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। संपत्ति सं. २, 08.2020 तक देय और लॉट नंबर 7, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, जो खसरा सं. मृगतानयोग्य साथ में पूर्ण 32 / / 23 में शामिल, मीजा गौछी, तहसील मूगतान होने तक . ल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। | 29.08.2020 से लागू ब्याज। ांधककर्ता का नाम : श्री राजेंद्र गुप्ता (संपत्ति सं.

नकुल गुप्ता +(91 8700867857) से संपर्क करें।

### AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED कार्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'' तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत।

अधोहस्ताक्षरी ने, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और अधिनियम की धारा 13 (12) साथ पिटत नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी का तर्काधार पर मानना है कि कर्जदारा मांग सूचना(एं) प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए सूचना की तामील नियमों के अनुसार इसे चस्पा करने और इसके प्रकाशन द्वारा की करवायी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय सामग्री यहां नीचे संक्षेप में दी गई है:

कजदार(रा) का नाम	माग सूचना ।ताथ शाश
	21—07—2023 रू. 36,86,852.69/— (रूपए छत्तीस लाज छियासी हजार आठ सौ बावन तथा पैसे उनहत्तर माः
3. प्रफुल कुमार 4. अनिल कुमार	10-07-2023
एलएएन नंबर DEL000000026768	
अचल सम्पत्ति/बंध	क सम्पत्तियों का वर्णन

मनोहर मैन्सन के अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर कॉमर्शियल शॉप प्राइवेट नंबर 08, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 119.56 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 123 पर निर्मित, प्रवेश सम्पत्ति सं. 152 से होकर, स्थित वार्ड नंबर 8, बाजार अजमेरी गेट, दिल्ली-110006

प्रतिभूत आस्तियों की चौहद्दी : पुरब : शॉप प्राइवेट नंबर 09, पश्चिम : शॉप प्राइवेट नंबर

07, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता कर्जदार(रों) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और उसमें तथा यह

ऊपर वर्णित मांग राशि का भूगतान, भूगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शूल्क लागत और व्यय सहित, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। कर्जदार ध्यान दें कि एएफपीएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा, उन अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है, जो कर्जदार(रों) द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति(यां) हैं। यदि कर्जदार निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएफपीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभृत संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगी, जिसमें अधिनियम और उसमें विरचित नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने द्वार अथवा बिक्री के माध्यम से उसका हस्तांतरण करना सम्मिलित है, लेकिन इसके अलावा भूगतान भी वसूल कर सकती है। एएफपीएल, बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को कुर्क और / या सील करने के लिये भी अधिकारसंपन्न है। प्रतिभृत संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, एएफपीएल की बकाया राशि की वसली के लिए अलग काननी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है. ऐसा वह तब कर सकती है यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य एएफपीएल को देय राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय अतिरिक्त है और किसी भी अन्य कानून के तहत एएफपीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों से अलग है। कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धार 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके आधार पर कर्जदार(रों) को एएफपीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या उसके लेनदेन या बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अलावा) स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग सचना की प्रति. अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि वे चाहें तो. किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 28-07-2023, स्थानः दिल्ली हस्ता./- प्रशांत ओहल प्राधिकृत अधिकारी एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

> Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

### FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2.46.49.206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

		ASBA	Applicati	ons	->	1							
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	PAN Mis- match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Category	Applications received		Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)		Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Additional Rights applied (B)			Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)			
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ('Bankers to the Issue') to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I,

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241

Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED** No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

**ISSUER COMPANY** 

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Officer

Ms. Priya Pritesh Agarwal

Place: Mumbai Date: 27.07.2023

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors"

beginning on page 21 of the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights

Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

#### प्ररूप संख्या आईएनसी-26 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड किस्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनिद्यम्, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

टीवीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45200DL2012PTC235802)

जिसका पंजीकत कार्यालयः एस-6 और 7, पंकज

एक्सटें शन, नई दिल्ली-110092 में हैं, के मामले में

एतदद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" सं "उत्तर प्रदेश राज्य" र स्थानांतरित करने के लिए सोमबार, 3 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ

एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा

तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत

डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

टीबीएस्टार इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता /-

सजय यादव (निदेशक)

ढीआईएन: 05243541

दिनांक : 27-07- 2023

स्थान: दिल्ली

एस-६ और ७, पंकज सेंट्रल मार्केट, प्लेटी पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी. एक्सटें शन,

परभी भेजें।

नई दिल्ली-110092

दिनांक: 27.07.2023

स्थान: नई दिल्ली

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

सेंट्रल मार्केट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी

30 के अनुसरण में} सीआईएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792 केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031, दूरभाषः +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022 प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420, ई–मेल : kishneet.kaur @idfcfirstbank.com



(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

परिशिष्ट-IV-ए

(नियम ८(६) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के

विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (iv) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह—ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित स्तंभ (v) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय **25—08—2023** को **''जैसी हैं जहां हैं'', जैसी हैं जो हैं'' और ''वहां जो कुछ भी हैं''** आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (पअ) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं

सह—ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के रूप में अभिज्ञात, को देय—भुग्तेय बकाया राशि की वसुली हेतु किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें। नीलामी विवरण

क्र. सं.	मांग सूचना तिथि एवं राशि	ऋण	ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) के नाम	संपत्ति पता	आरक्षित मूल्य राशि	धराज राशि	धराज एवं प्रलेख जमा की अंतिम तिथि एवं समय (ऑनलाइन) को/पहले	नीलामी की तिथि एवं समय	संपितत के निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी के विवरण	
1.	आईएनआर 64,36,791 / — दिनांक 13.11.2019 के अनुसार	2973551	आर जे एस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंद्र कांत (राज वर्द्धनभगत के विधिक उत्तराधिकारी)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि यूनिट नं. 18 से युक्त, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर एवं यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी—1, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली—110085	4,480,000 / -	आईएनआर 4,48,000 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	किशनीत कौर, संपर्क नंबर–	
2.	आईएनआर 20,72,475.59 / — दिनांक 11.06.2021 के अनुसार		सलीक अहमद खान, गजला सलीक	दुकान सं. 611 के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि क्षेत्र माप 12.6344 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल एवं मेजानाइन तल इसके छताधिकारों के साथ समाहित है, जो गांधी क्लॉकथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— संपत्ति सं. 610 के साथ सामान्य सीढ़ी, गली कटरा रेवड़ी का रास्ता, संपत्ति सं. 613—14 के साथ सामान्य सीढ़ी; पश्चिम— इस दुकान का द्वार पालाफोर्म रास्ते के अंदर से कटरा अल्लह दिया नामेद से होकर गांधी क्लॉथ मार्किट से है; उत्तर— दुकान सं. 612 आम दीवाल; दक्षिण— शौचालय एवं स्नानागार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जो आम रास्ते के लिये सुरक्षित है।	2,664,000 / -	आईएनआर 2,66,400 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	9818130420, ईमेल आईडी— kishneet.kaur @idfcfirstbank. com	

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि उक्त सुचना जो है वह केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर विद्यमान चल परिसंपत्तियों, यदि कोई, का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी

বিথি : 28.07.2023

whatsoever.

स्थान : नोएडा (दिलली रा.स.क्षे.)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. विदित (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)



#### THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002 Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943

Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458 Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

एतदहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 गई, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (लाग् परिपत्रों) के अनुपालन में बैठक की सुचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 85वीं वार्षिक जाम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 24 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) विडियो कॉन्क्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने एजीएम की सूचना के साथ वितीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को ई-मेल के माध्यम से मेजने का कार्य मुख्तवार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन ई-वोटिंग के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार मुख्तार, 17 अगस्त, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित शेयरों के ज्ञानपातिक होगा। एजीएम में ई-बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के मध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना को कंपनी की वेबसाइट https://www.nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm पर और एलआईआईपीएल की वेबसाइट http://instavote.linkintime.co.in पर भी रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर एजीएम की सूचना गेजे जाने के बाद अधिगृहित किए है और कंपनी का सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि पर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, वह instavote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या फोन नं. 022-49186000 पर अनुरोध के

बोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर

या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही सदस्य

मध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत हैं तो वह अपना वर्तमान यूजर आईढी एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 जगरत, 2023 को प्रात: 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंभ होगी और बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को साथं 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बंद होगी। इस अवधि के

दौरान कंपनी के शेयरधारक अपना बोट रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से वे सकते हैं। 23 अगस्त, 2023 को साथ 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-बोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का

पर ई-मेल के माध्यम से लिखें या फोन नं. 022-49186000 पर सम्पर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोदस और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान बोटिंग के माध्यम से अपना बोट देने की प्रक्रिया को मली-माति पढ लें।

अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीय रंजन, सहा. उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को encices@inkirime.co.in

कृते वि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पवन कुमार बंसल अध्यक्ष और प्रबंध निवेशिक

DIN: 09015697

स्थानः नई विल्ली

विभि: 27.07.2023

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए. पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतगढ कदम TATA मार्ग, त्वोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिणिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहरताक्षरी विनीय आरितयों के प्रतिभतिकरण एवं पनगंटन तथा प्रतिभति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 के निवम 3 के लाय पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राणि का पुनर्भगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सुचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतहारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पटित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्बा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्मत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतायनी

दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ज्यान और नीचे उल्लिखन निधि से दण्डात्मक रूपन प्रभारों. लागनों आदि के लिए टाटा कैपिटल डाउसिंग फाइनेंस लिपिटेड के प्रतिभूत आस्तियों को छड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम

की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि	
9746277	श्री अनिकेत प्रकाश (कर्जदार) तथा श्री ऋषिकेश प्रकाश (सह-कर्जदार)	रु. 24,69,643/- (रुपये चौबीस लाख उनहत्तर हजार छ: सौ तैतालीस मात्र)	24.07.2023	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः युनिट/प्लैट नंबर फीनिक्स 1610, 16वीं मॅकिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01थी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस ये, गीतमबुद्ध नगर 201301 (युपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य

भा सुविधाञ	ा के साथ		
	श्री अनुराग जैन (कजंदार) तथा श्रीमती वर्तिका जैन (सह-कजंदार)	रु. 29,90,480/- (रुपये दनतीस लाख नच्चे हजार चार सी अस्सी मात्र)	24.07.2023

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर वालेंसिया-1708,17वीं मॅजिल का समस्त भाग, माप ९९५ वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, जोएच-01. टीएस-01ची, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसचे, गीतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), बिल्डर

खरीदार समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाओं के साथ।					
9639072	श्रीमती कनु प्रिया (कर्जदार) तथा श्री शास्यत चीरसिया (सह-कर्जदार)	रु. 26,47,882/- (रुपये छळ्डीस लाख सैतालीस हजार आठ सी बयासी मात्र)	24.07,2023		

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर, फीनिक्स-12ए-01, 12वीं मॉजल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक डमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्धनगर 201301 (युपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

9512964	श्रीमती रूबी तबस्सुम (कर्जदार) तथा श्री रूपेश कुमार रूपम (सह-कर्जदार)	रु. 29,31,177/- (रुपये उनतीस लाख इकतीस हजार एक सी सतहत्तर मात्र)	24.07.2023
	कुमार रूपम (सह-कनदार)	सतहत्तर मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियो/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय इकाई/फ्लैट नं, फीनिक्स 1109, 11वीं मंजिल का समस्त भाग, माप 845 धर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस वे, गीतमबुद्धनगर (युपी) 201301 में स्थित, बिल्डर क्रोता अनुबंध में उल्लिखित सभी सुविधाओं

9602905	श्री सत्य प्रकाश (कर्जदार) तथा श्रीमती खुशबृ शर्मा	रु. 31,95,555/- (रुपये इकतीस लाख पिचानचे हजार पांच सौ पचपन	24.07.2023
	(सह-कर्जदार)	मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आचासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर हेट्रॉइट 904,9वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22 डी, यमुना एक्सप्रेस थे, गीतम बुद्ध नगर 201301 (यूपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सविधाओं के साथ।

	श्री सिद्धार्च जदली कर्जदार) तथा श्रीमती अलका जदली (सह- कर्जदार)	रु. 31,63,449/- (रुपये इकतीस लाख तिरेसठ हजार चार सौ उनचास मात्र)	24.07.2023
--	---	--	------------

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति युनिट/पलैट नंबर, सीजर्स 1601,16वीं मौजिल का समस्त भाग, माप 1295 वर्ग फोट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्धनगर (यूपी) 201301 पर स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9538915	(कर्जदार) तथा श्री यशयंत	रु. 23,52,382/- (रुपये तेईस लाख बादन हजार तीन सौ बयासी मात्र)	24.07.2023
	कुमार राव (सह-कर्जदार)		1

प्रतिभत आस्त्रियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यनिट नंबर एनटी-1704,17वी मंजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहर इमारत में रिश्वत, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गीतमबुद्धनगर-201301(यूपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

9531771	श्री वी. कुमार उर्फ	<ul> <li>23,66,864/- (रुपये तेईस लाख</li> </ul>	24.07.2023
	विश्वनाथ कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती जवश्री ताशी (सह-कर्जदार)	छियासठ हजार आठ सी चौसठ मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आचासीय युनिट/फ्लैट नंबर मीजा 801, 08वीं मीजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रॅंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमना ए क्सप्रेस ये, गीतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9630320	श्री विश्वनाथ ईश्वरन (कर्जंदार) एवं श्रीमती सरस्वती उर्फ दुराई सरस्वती उर्फ सरस्वती जगदीश सनैच्या दुरला (सह-	रु: 20,32,071/- (रु पर्ये बीस लाख बत्तीस हजार इकहत्तर मात्र)	24.07.2023
	कर्जदार)		

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय वृनिट/फ्लैट नंबर मींजा 901, 09वी मॅजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस ये, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

ह./-अधिकत प्राधिकारी

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड

Chandigarh

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

www.readwhere.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के मामले में तथा पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड -आवेदक

कम्पनी रजिस्टार. दिल्ली -प्रतिवादी कार्यालय के पते के स्थानांतरण के संदर्भ में 25.07.2023 को इस समाचार पत्र मे आम जनता के लिये सचना प्रकाशित की गई थी। कपया सही स्थानांतरित कार्यालय का पता इस प्रकार पढ़ें: ठाकर टावर, 1ला तल, 109, प्लॉट नं. 86, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुम्बई-400705, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

कृत्ते, पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 28.07.2023 पल्या वैंकटरामण रवि प्रसाद निदेशक (DIN:01296821) 1ला तल, हरवंश भवन-1, डीडीए बिजनेस कॉम्प्लैक्स, नांगल राया. नई दिल्ली-110046. दिल्ली



स्थानः दिल्ली

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जनकपुरी शाखा, नई दिल्ली

शाखा के लॉकर धारक निम्नलिखित लॉकर के निर्धारित किराये का भूगतान नहीं कर पाएं हैं। नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक के पास लॉकर किराए का भगतान न करने पर उक्त लॉकर को तोड कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। तदनुसार, इन सभी कार्रवाइयों से बचने के लिए नियत तारीख से पहले लॉकरधारक सबंन्धित शाखाओं में आवदेन कर बकाए का भुगतान कर सकते हैं। अन्यथा सभी नियमों के साथ 30 अक्टबर 2023 को लॉकर तोड़ कर खोला जाना प्रस्तावित है। लॉकर तोड़ कर खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा बकाया किराया एवं अन्य खर्चों इत्यादि की वसली का काननी अधिकार बैंक के पास सरक्षित होगा।

क.सं.	शाखा का नाम	1.0	100	
1	जनकपुरी शाखा	एस3 / 205		सुश्री टीना गुलाटी बी—32 टॉप फ्लोर गुजरावाला अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली—110018
				राता /

दिनांकः 30.07.2023 स्थानः नई दिल्ली

प्रसाद गुप्ता तथा श्रीमती मीना देवी,

सभी का पता : मकान नंबर— 10210,

गली नंबर – 320. संजय कॉलोनी

प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक लि., जनकपुरी शाखा

कोटक महिद्रा बैंक लिमिटेड kotak पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051, शाखा कार्यालय : 7वां तल, भूखंड सं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-<u>201313</u>

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रा एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का, भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह-उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चके हैं. अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षित्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहां उसमें अर्थात सुचना मे विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्तियों को छडवाने के लिए उपलब्ध समय के

संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचनाओं और उनके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियां. अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं: प्राधिकृत व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद नंबर 33, किला नंबर किला नंबर 13/20, 13/21, गुप्ता के माध्यम से एवं श्री राजेंद्र 18/1/9, 8/1/10, 18/1/22, 18/1/23, 3, 28-08-2020

सेक्टर — 23, फरीदाबाद, हरियाणा — फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। संपत्ति सं. 2, 08.2020 तक देय और प्लॉट नंबर 7, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, जो खसरा सं. भुगतानयोग्य साथ में पूर्ण 32 / / 23 में शामिल, मौजा गौछी, तहसील भुगतान होने तक LNDEL00616-170000526. बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। | 29.08.2020 से लागू ब्याज। बंधककर्ता का नाम : श्री राजेंद्र गुप्ता (संपत्ति सं 10.50.000 / – (रुपये दस लाख 1), श्रीमती मीना देवी (संपत्ति सं. 2) पचास हजार मात्र)

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी े दिनांक : 28—07—2023, स्थान : फरीदाबाद किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल +(91 9910563402) तथा श्री नकुल गुप्ता +(91 8700867857) से संपर्क करें।

18/2/1, 18/2/2, 18/2/6, 18/2/9 並

18/1/28, 18/1/29, 18/1/12, 18/1/13, 4. रु. 12,85,882/- (रुपये

शामिल जो मौजा गौछी, तहसील बल्लभगढ़ जनपद बात सौ बयासी मात्र) 28.

बारह लाख पिचासी हजार

### AMBITFINNEST AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम''

तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरी ने, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और अधिनियम की धारा 13 (12) साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी अधोहस्ताक्षरी का तर्काधार पर मानना है कि कर्जदारा मांग सूचना(एं) प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए सूचन की तामील नियमों के अनुसार इसे चस्पा करने और इसके प्रकाशन द्वारा की करवायी जा रही है। मांग

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
कर्जदार(रों) का नाम	मांग सूचना तिथि राशि
1. मेटालोन मार्केटिंग	21—07—2023 रू. 36,86,852.69 / — (रूपए छत्तीस लाख
3	छियासी हजार आठ सौ बावन तथा पैसे उनहत्तर मात्र)
3. प्रफुल कुमार 4. अनिल कुमार	10-07-2023
एलएएन नंबर DEL000000026768	

मनोहर मैन्सन के अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर कॉमर्शियल शॉप प्राइवेट नंबर 08, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 119.56 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 123 पर निर्मित, प्रवेश सम्पत्ति सं. 152 से होकर, स्थित वार्ड नंबर ८, बाजार अजमेरी

प्रतिभूत आस्तियों की चौहद्दी : पूरब : शॉप प्राइवेट नंबर 09, पश्चिम : शॉप प्राइवेट नंबर

०७, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता कर्जदार(रों) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और उसमें तथा यह

ऊपर वर्णित मांग राशि का भुगतान, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क लागत और व्यय सहित, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। कर्जदार ध्यान दें कि एएफपीएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा, उन अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभृत ऋण है, जो कर्जदार(रों) द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति(यां) हैं। यदि कर्जदार निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएफपीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभृत संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगी, जिसमें अधिनियम और उसमें विरचित नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने द्वार अथवा बिक्री के माध्यम से उसका हस्तांतरण करना सम्मिलित है. लेकिन इसके अलावा भगतान भी वसल कर सकती है। एएफपीएल, बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लाग करने से पहले सरक्षित संपत्ति को कर्क और / या सील करने के लिये भी अधिकारसंपन्न है। प्रतिभत संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, एएफपीएल को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, ऐसा वह तब कर सकती है यदि बंधक संपत्तियों का मुल्य एएफपीएल को देय राशि को पुरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय अतिरिक्त है और किसी भी अन्य कानुन के तहत एएफपीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों से अलग है। कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धार 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकष्ट किया जात है, जिसके आधार पर कर्जदार(रों) को एएफपीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या उसके लेनदेन या बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य अनक्रम के अलावा) स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग सचना की प्रति, अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि वे चाहें तो, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./- प्रशांत ओहल प्राधिकृत अधिकारी एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from "Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05<sup>n</sup> July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	ASBA Applications			Rejection					1				
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	0.0000000000000000000000000000000000000	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received for the said applica- tion	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

in accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17" July, 2023, in consultation with the issuer Company, th Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid application **Basis of Allotment:** 

Category	Applications received		Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)			and A	lumber of Equity Shares Accepted To and Allotted against Additional Rights applied (B)			ts Shares Accept nd Allotted (A41)	ed
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	3
ligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	-8
Renounce	156	5.53	7.58.999	75.89.990	22.39	0	0	0	7.58.999	75.89.990	

100 33.89.373 3.38.93.730

INTIMATIONS FOR ALLOTMENT/ REFUND/ REJECTION CASES: The dispatch of allotment advice own refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ("Bankers to the Issue") to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

100 2.12.59.833 2.12.59.833

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

**REGISTRAR TO THE ISSUE** 

D 153 A. 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED

No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal

**ISSUER COMPANY** 

(Company Secretary and Compliance Officer) Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/dema

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Director

> > Ms. Priva Pritesh Agarwa

Place: Mumbai

Date: 27.07.2023 Company Secretary and Compliance Office The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com

Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities

Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Ac and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions. AdBaa

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्ररूप संख्या आईएनसी-26

> (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) सीआईएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031, दूरभाषः +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022 प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420, ई–मेल : kishneet.kaur @idfcfirstbank.com

अर्थात् https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट—IV—ए

(नियम ८(६) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (iv) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह—ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित स्तंभ (v) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय 25—08—2023 को "जैसी हैं जहां हैं", जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (पअ) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एव सह—ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के रूप में अभिज्ञात, को देय—भुग्तेय बकाया राशि की वसली हेत किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट

क्र. सं.	मांग सूचना तिथि एवं राशि	ऋण	ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) के नाम	संपत्ति पता	आरक्षित मूल्य राशि	धराज राशि	धराज एवं प्रलेख जमा की अंतिम तिथि एवं समय (ऑनलाइन) को / पहले	नीलामी की तिथि एवं समय	संपितत के निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी के विवरण
1.	आईएनआर 64,36,791 / — दिनांक 13.11.2019 के अनुसार	7377040, 2973551	आर जे एस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंद्र कांत (राज वर्द्धनभगत के विधिक उत्तराधिकारी)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि यूनिट नं. 18 से युक्त, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर एवं यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी—1, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली—110085	4,480,000 / -	आईएनआर 4,48,000 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	किशनीत कौर, संपर्क नंबर–
2.	आईएनआर 20,72,475.59 / — दिनांक 11.06.2021 के अनुसार	9951315	सलीक अहमद खान, गजला सलीक	दुकान सं. 611 के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि क्षेत्र माप 12.6344 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल एवं मेजानाइन तल इसके छताधिकारों के साथ समाहित है, जो गांधी क्लॉकथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— संपत्ति सं. 610 के साथ सामान्य सीढ़ी, गली कटरा रेवड़ी का रास्ता, संपत्ति सं. 613—14 के साथ सामान्य सीढ़ी; पश्चिम— इस दुकान का द्वार पालाफोर्म रास्ते के अंदर से कटरा अल्लह दिया नामेद से होकर गांधी क्लॉथ मार्किट से है; उत्तर— दुकान सं. 612 आम दीवाल; दक्षिण— शौचालय एवं स्नानागार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जो आम रास्ते के लिये सुरक्षित है।	2,664,000 / -	आईएनआर 2,66,400 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	9818130420, ईमेल आईडी— kishneet.kaur @idfcfirstbank. com

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि उक्त सूचना जो है वह केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर विद्यमान चल परिसंपत्तियों, यदि कोई, का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

दिनांक : 27-07- 2023 स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. विदित (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002

Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943 Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458 Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल. 2020. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (लाग परिपत्रों) के अनुपालन में बैठक की सचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 85वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 24 अगस्त, 2023 को प्रात: 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने एजीएम की सचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजने का कार्य परा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके ढिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को ई-मेल के माध्यम से मेजने का कार्य गुरूवार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन

ई—वोटिंग के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने की सविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार गुरुवार, 17 अगरत, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के आनुपातिक होगा। एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है. वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर

एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना को कंपनी की वेबसाइट https://www.nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm पर और एलआईआईपीएल की वेबसाइट http://instavote.linkintime.co.in पर भी रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर एजीएम की सचना भेजे जाने के बाद अधिमृहित किए है और कंपनी का सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि पर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, वह instavote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या फोन नं. 022-49186000 पर अनुरोध के

या ढिपोंजिटरीज द्वारा तैयार की गई लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही सदस्य

माध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। यद्यपि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत हैं तो वह अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 अगस्त, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंभ होंगी और बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को सायं 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बंद होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरघारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे सकते हैं। 23 अगस्त, 2023

को साथ 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई-वोटिंग से जुडी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को enclices@linkinime.co.in

पर ई-मेल के माध्यम से लिखें या फोन नं. 022-49186000 पर सम्पर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सचना में दिये गये सभी नोटस और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की प्रक्रिया को मली-मांति पद लें।

कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स सिमिटेड पवन कुमार बंसल

स्थानः नई दिल्ली विधिः 27.07.2023


96.92

3.08

100

100 2,46,49,206 24,64,92,060

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिक DIN: 09015697 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभृति हित प्रदार्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पटित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहरताक्षरी वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गंटन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के निवम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्नदारों से कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सचना निर्गत की। ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पटित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर व्याज और नीचे

उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा। प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम

की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि
9746277	श्री अनिकेत प्रकाश (कर्जदार) तथा श्री ऋषिकेश प्रकाश (सह-कर्जदार)	ह. 24,69,643/- (रुपये चौबीस लाख उनहत्तर हजार छः सौ तैतालीस मात्र)	24.07.2023

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः यूनिट/फ्लैट नंबर फीनिक्स 1610, 16वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (युपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सविधाओं के साथ

9522905	श्री अनुराग जैन (कर्जदार) तथा श्रीमती वर्तिका जैन (सह-कर्जदार)	रु. 29,90,480/- (रुपये उनतीस लाख नब्बे हजार चार सौ अस्सी मात्र)	24.07.2023

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विचरणः आचासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर वालेंसिया-1708,17वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रॅंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गीतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), बिल्डर खरीदार समझौते के तहत सभी सामान्य सविधाओं के साथ।

9639072	श्रीमती कनु प्रिया (कर्नदार) तथा श्री साश्वत चौरसिया (सह-कर्जदार)	रु. 26,47,882/- (रुपये छब्बीस लाख सैंतालीस हजार आठ सी बयासी मात्र)	24.07.2023
			-

व्रतिभूत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर, फीनिक्स-12ए-01, 12वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में रिश्रत, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22डी, यमुना एक्सप्रेसचे, गौतमबुद्धनगर 201301 (यूपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सविधाएं हैं।

9512964	श्रीमती रूबी तबस्सुम (कर्जदार) तथा श्री रूपेश	रु. 29,31,177/- (रुपये उनतीस लाख इकतीस हजार एक सौ	24.07.202
	कुमार रूपम (सह-कर्जदार)	सतहत्तर मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियाँ/चल संपत्तियाँ का विवरणः आवासीय इकाई/फ्लैट नं, फीनिक्स 1109, 11वीं मंजिल का प्तमस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस वे, गौतमबुद्धनगर (यूपी) 201301 में स्थित, बिल्डर क्रेता अनुबंध में उल्लिखित सभी सुविधाओं

30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									
श्री सत्य प्रकाश (कर्जदार) तथा श्रीमती खुशबृ शर्मा (सह–कर्जदार)	रु. 31,95,555/- (रुपये इकतीस लाख पिचानबे हजार पांच सौ पचपन मात्र)	24.07.2023							
	तथा श्रीमती खुशब् शर्मा	तथा श्रीमती खुशब् शर्मा लाख पिचानबे हजार पांच सौ पचपन							

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर डेट्रॉइट 904,9वी मॅजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22 डी, यमना एक्सप्रेस वे, गीतम बुद्ध नगर 201301 (युपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सविधाओं के साथ।

3073323	(कर्जदार) तथा श्रीमती	लाख तिरेसठ हजार चार सौ उनचास	24.07,2023
	अलका जदली (सह-	मात्र)	
	कर्नदार)		

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति युनिट/फ्लैट नंबर, सीजर्स 1601,16वीं मॅजिल का समस्त भाग, माप 1295 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गीतमबुद्धनगर (यूपी) 201301 पर रिथत, बिल्डर क्रेता समझीते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9538915		रु. 23,52,382/- (रुपये तेईस लाख बावन हजार तीन सौ बयासी मात्र)	24.07.2023
---------	--	--	------------

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर एनट्री-1704,17वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्धनगर-201301(युपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

विश्वनाथ कुमार (कर्जदार) छियासठ हजार आठ सौ चौंसठ तथा श्रीमती जयश्री ताक्षी मात्र) (सह-कर्जदार)	9531771	विश्वनाथ कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती जयश्री ताक्षी		24.07.2023
--	---------	---	--	------------

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय यूनिट/फ्लैट नंबर मोंजा 801, 08वीं मॅजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस वे, गीतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में रिथत, बिल्डर क्रेता समझीते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

श्रीमती सरस्वती उर्फ दुराई सरस्वती उर्फ पये बीस लाख बत्तीस सरस्वती जगदीश सनैच्या दुरला (सह- हजार इकहत्तर मात्र) कर्जदार)	9630320	श्रीमती सरस्वती उर्फ दुराई सरस्वती उर्फ सरस्वती जगदीश सन्भ्या दुरला (सह-		24.07.2023
--	---------	---	--	------------

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय युनिट/फ्लैट नंबर मींजा 901, 09वी मॅजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमना एक्सप्रेस वे, गीतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड "IMPORTANT"

तिथि : 28.07.2023

स्थान : नोएडा (दिल्ली रा.रा.क्षे.)


Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

ह./-अधिकृत प्राधिकारी

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

www.readwhere.com

दिनांक : 27.07.2023 स्थान: नई दिल्ली







कार्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506-510, अंधेरी-कूर्ला मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

अचल सम्पत्ति/बंधक सम्पत्तियों का वर्णन

सचना(ओं) की विषय सामग्री यहां नीचे संक्षेप में दी गई है:

गेट, दिल्ली-110006

दिनांकः 28-07-2023, स्थानः दिल्ली

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में टीवीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45200DL2012PTC235802) जिसका पंजीकत कार्यालय: एस-6 और 7. पंकज सेंट्रल मार्केट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी. एक्सटें शन, नई दिल्ली—110092 में हैं, के मामले में ....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में}

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 3 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंढित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स. नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक

एस-6 और 7, पंकज सेंट्रल मार्केट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी. एक्सटें शन, नई दिल्ली-110092 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से टीबीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

संजय यादव (निदेशक) ढीआई एन : 05243541



कम्पना आधानयम, 2013 का धारा 12 एवं 13 तथा कम्पना (ानगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के आवेदन के संदर्भ में सूचना क्षेत्रीय निदशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के मामले में तथा पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड -आवेदक

-प्रतिवादी कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली कार्यालय के पते के स्थानांतरण के संदर्भ में 25.07.2023 को इस समाचार पत्र मे आम जनता के लिये सूचना प्रकाशित की गई थी। कृपया सही स्थानांतरित कार्यालय का पता इस प्रकार पढ़ें: ठाकर टावर, 1ला तल, 109, प्लॉट नं. 86, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुम्बई-400705, महाराष्ट्र, भारत।

> पल्या वैंकटरामण रवि प्रसाद निदेशक (DIN:01296821) 1ला तल. हरवंश भवन-1. डीडीए बिजनेस कॉम्प्लैक्स नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दिल्ली



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जनकपुरी शाखा, नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,

सीचत किया जाता है कि हमार विभिन्न नाटिसा एवं मांगा के बाद भी हमार जनकप शाखा के लॉकर धारक निम्नलिखित लॉकर के निर्धारित किराये का भगतान नहीं कर पाए हैं। नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक के पास लॉकर किराए का भूगतान न करने पर उक्त लॉकर को तोड कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। तदनुसार, इन सभी कार्रवाइयों से बचने के लिए नियत तारीख से पहले लॉकरधारक सबंन्धित शाखाओं में आवदेन कर बकाए का भगतान कर सकते हैं। अन्यथा सभी नियमों के साथ 30 अक्टूबर 2023 को लॉकर तोड कर खोला जाना प्रस्तावित है। लॉकर तोड कर खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा बकाया किराया एवं अन्य खर्चों

क.सं.	शाखा का नाम		सदयह	नाम तथा पता
1	जनकपुरी शाखा	एस3 / 205		सुश्री टीना गुलाटी बी—32 टॉप फ्लोर गुजरावाला अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली—110018

कोटक महिद्रा बैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051, शाखा कार्यालय : 7वां तल, भूखंड सं.–7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313 जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तिर एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली

2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का, भूगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शूल्कों और व्ययों के साथ, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह-उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षित्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहां उसमें अर्थात सचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेत् कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपित्तयों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के

संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, ध अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहां इ	ारा 13(2) समें नीचे वि	के अंतर्गत प्रेषित मांग		
उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता के नाम पते/ऋण खाता संख्या/ऋण	राशि	अचल संपत्ति के विवरण	3. मांग सूचना तिश्	तिथि 2. अधिग्रहण का प्रकार थे 4. बकाया देयराशि रु. में
मैसर्स निरंकारी मसाला भण्डार, अपने		: 1, भूमि क्षेत्रफल 40		1. 25.07.2023
प्राधिकृत व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद	नंबर 33,	किला नंबर किला नंबर	13/20, 13/21,	2. भौतिक अधिग्रहण
गुप्ता के माध्यम से एवं श्री राजेंद्र	18/1/9	, 8/1/10, 18/1/	22, 18/1/23,	3. 28-08-2020
प्रसाद गुप्ता तथा श्रीमती मीना देवी,		8, 18/1/29, 18/1,		4. रु. 12,85,882 /— (रुपर
<b>सभी का पता :</b> मकान नंबर— 10210,		, 18/2/2, 18/2/		बारह लाख पिचासी हजा
गली नंबर — 320, संजय कॉलोनी,		, 107 27 2, 107 27 ो मौजा गौछी, तहसील		
सेक्टर — 23, फरीदाबाद, हरियाणा —		, हरियाणा में स्थित हैं		आठ सौ बयासी मात्र) 28
121005,				08.2020 तक देय औ
ऋण खाता संख्या :		र 7, क्षेत्रफल 50 वर्ग ग		भुगतानयोग्य साथ में पूण
I NDEL 00616 170000526	32 / / 23	। में शामिल, मौजा	गीछी, तहसील	भूगतान होने तव

-2023, स्थान : फरीदाबाद कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल +(v1 9910563402) तथा श्री नकुल गुप्ता +(v1 8700867857) से संपर्क करें।

### AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED कार्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'' तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत।

अधोहस्ताक्षरी ने, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और अधिनियम की धारा 13 (12) साथ पिटत नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी का तर्काधार पर मानना है कि कर्जदारा मांग सूचना(एं) प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए सूचना की तामील नियमों के अनुसार इसे चस्पा करने और इसके प्रकाशन द्वारा की करवायी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय सामग्री यहां नीचे संक्षेप में दी गई है:

कर्जदार(रो) का नाम	माग सूचना तिथि राशि
2. सुरभि अग्रवाल	21—07—2023 रू. 36,86,852.69 / — (रूपए छत्तीस लाख छियासी हजार आठ सौ बावन तथा पैसे उनहत्तर मात्र)
3. प्रफुल कुमार 4. अनिल कुमार एलएएन नंबर DEL000000026768	10-07-2023
अचल सम्पत्ति/बंध	क सम्पत्तियों का वर्णन

मनोहर मैन्सन के अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर कॉमर्शियल शॉप प्राइवेट नंबर 08, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 119.56 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 123 पर निर्मित, प्रवेश सम्पत्ति सं. 152 से होकर, स्थित वार्ड नंबर 8, बाजार अजमेरी

प्रतिभूत आस्तियों की चौहद्दी : पूरब : शॉप प्राइवेट नंबर 09, पश्चिम : शॉप प्राइवेट नंबर

कर्जदार(रों) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और उसमें तथा यह ऊपर वर्णित मांग राशि का भूगतान, भूगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शूल्क लागत और व्यय सहित. इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। कर्जदार ध्यान दें कि एएफपीएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा, उन अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है, जो कर्जदार(रों) द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति(यां) हैं। यदि कर्जदार निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएफपीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभृत संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगी, जिसमें अधिनियम और उसमें विरचित नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने द्वार अथवा बिक्री के माध्यम से उसका हस्तांतरण करना सम्मिलित है, लेकिन इसके अलावा भूगतान भी वसूल कर सकती है। एएफपीएल, बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को कुर्व और / या सील करने के लिये भी अधिकारसंपन्न है। प्रतिभूत संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, एएफपीएल को बकाया राशि की वस्ती के लिए अलग कानुनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, ऐसा वह तब कर सकती है यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य एएफपीएल को देय राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय अतिरिक्त है और किसी भी अन्य कानन के तहत एएफपीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों से अलग है। कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धार 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके आधार पर कर्जदार(रों) को एएफपीएल की पर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी प्रतिभत संपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या उसके लेनदेन या बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अलावा) स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग सचना की प्रति, अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि वे चाहें तो. किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान

दिनांक: 28-07-2023, स्थान: दिल्ली हस्ता./- प्रशांत ओहल प्राधिकृत अधिकारी एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from \*Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2,46,49,206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

ASBA Applications							Rejection						
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	cate entries		Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Category	Applica receiv	MY YOR OAKT	and Allo	Equity Shares Ac otted against Rig stitlements (A)		and A	quity Shares Aco Motted against Rights applied	erevi		nts Shares Accept and Allotted (A41)	ed
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100
INTIMATIONS FOR AL	LOTMENT/	REFUNI	O/ REJECTION	CASES: The dis	patch of	allotment advice	own refund inti	mation ar	nd question for the	e rejection, as app	licable, to

the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ("Bankers to the Issue") to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, India Tel: +91 011 - 40450193-97

REGISTRAR TO THE ISSUE

E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

ISSUER COMPANY

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Officer

Ms. Priya Pritesh Agarwal

Place: Mumbai Date: 27.07.2023

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except

pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

IDFC FIRST

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031, दूरभाषः +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022 प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420, ई–मेल : kishneet.kaur @idfcfirstbank.com

(नियम ८(६) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (iv) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह—ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित स्तंभ (v) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय **25—08—2023** को **''जैसी हैं जहां हैं'', जैसी हैं जो हैं'' और ''वहां जो कुछ भी हैं''** आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (पअ) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के रूप में अभिज्ञात, को देय—भुग्तेय बकाया राशि की वसली हेतु किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट

क्र. सं.	मांग सूचना तिथि एवं राशि	ऋण	ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) के नाम	संपत्ति पता	आरक्षित मूल्य राशि	धराज राशि	धराज एवं प्रलेख जमा की अंतिम तिथि एवं समय (ऑनलाइन) को ⁄ पहले	नीलामी की तिथि एवं समय	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी के विवरण
1.	आईएनआर 64,36,791 / – दिनांक 13.11.2019 के अनुसार	7377040, 2973551	आर जे एस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंद्र कांत (राज वर्द्धनभगत के विधिक उत्तराधिकारी)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि यूनिट नं. 18 से युक्त, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर एवं यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी—1, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली—110085	4,480,000 / -	आईएनआर 4,48,000 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	किशनीत कौर, संपर्क नंबर–
2.	आईएनआर 20,72,475.59 / — दिनांक 11.06.2021 के अनुसार	9951315	सलीक अहमद खान, गजला सलीक	दुकान सं. 611 के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि क्षेत्र माप 12.6344 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल एवं मेजानाइन तल इसके छताधिकारों के साथ समाहित है, जो गांधी क्लॉकथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— संपत्ति सं. 610 के साथ सामान्य सीढ़ी, गली कटरा रेवड़ी का रास्ता, संपत्ति सं. 613—14 के साथ सामान्य सीढ़ी; पश्चिम— इस दुकान का द्वार पालाफोर्म रास्ते के अंदर से कटरा अल्लह दिया नामेद से होकर गांधी क्लॉथ मार्किट से है; उत्तर— दुकान सं. 612 आम दीवाल; दक्षिण— शौचालय एवं स्नानागार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जो आम रास्ते के लिये सुरक्षित है।	2,664,000 / -	आईएनआर 2,66,400 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	9818130420, ईमेल आईडी— kishneet.kaur @idfcfirstbank. com

अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि उक्त सूचना जो है वह केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर विद्यमान चल परिसंपित्तियों, यदि कोई, का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी

तिथि : 28.07.2023

स्थान : नोएडा (दिल्ली रा.स.क्षे.)

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002 Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943 Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458

Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (लागू परिपन्नों) के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 85वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 24 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) विडियो कॉन्क्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को ई-मेल के माध्यम से मेजने का कार्य गुरूवार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन

ई-वोटिंग के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित शेयरों के आनुपातिक होगा। एजीएम में ई-बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर

या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही सदस्य एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना को कंपनी की वेबसाइट https://www.nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm पर और एलआईआईपीएल की वेबसाइट http://instavote.linkintime.co.in पर भी रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद अधिगृहित किए है और कंपनी का सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि पर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं. वह

instavote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या फोन नं. 022-49186000 पर अनुरोध के माध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत हैं तो वह अपना वर्तमान यूजर आईढी एवं पासवर्ढ का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 अगस्त, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंभ

होगी और बृधवार, 23 अगस्त, 2023 को साथं 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बंद होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे सकते हैं। 23 अगस्त, 2023 को साथ 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई—वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई-बोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प

सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को encices@inkinime.co.in पर ई-मेल के माध्यम से लिखें या फोन नं. 022-49186000 पर सम्पर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में

शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने की प्रक्रिया को भली-भांति पढ लें। कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड

स्थानः नई विल्ली विधिः 27.07.2023

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वी मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसूला बिजिनेस पार्क, गणपतगव कदम **TATA** मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

पवन कुमार बंसल

DIN: 09015697

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिक

जबकि अधोहरताक्षरी वितीय आरितयों के प्रतिभतिकरण एवं पनगंटन तथा प्रतिभति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त प्रक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भृगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

[प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम s(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य की एतहारा सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी

दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर व्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि
9746277	श्री अनिकेत प्रकाश (कर्जदार) तथा श्री ऋषिकेश प्रकाश (सह-कर्जदार)	रु. 24,69,643/- (रुपये चौबीस लाख दनहत्तर हजार छः सौ तैतालीस मात्र)	24.07.2023

प्रतिभत आस्तियाँ/चल संपत्तियाँ का विवरणः युनिट/फ्लैट नंबर फीनिक्स 1610, 16वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप ८४५ वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में रिखत, जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य

समा सुविधाव	તમાં સુવિધાલા જ સાથ							
9522905	श्री अनुराग जैन (कर्जदार) तथा श्रीमती वर्तिका जैन (सह-कर्जदार)	रु. 29,90,480/- (रुपये दनतीस लाख नब्बे हजार चार सौ अस्सी मात्र)	24.07.2023					

प्रतिभत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/यनिट नंबर वालेंसिया-1708,17वीं मंजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित,

जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), विरुटर खरीदार समझौते के तहत सभी सामान्य सविधाओं के साथ।

9639072	श्रीमती कनु प्रिया (कर्जदार) तथा श्री शास्वत चौरसिया (सह-कर्जदार)	रु. 26,47,882/- (रुपये छळ्बीस लाख सैतालीस हजार आठ सी वयासी मात्र)	24.07.2023
प्रतिभृत आस्त्रि	त्यों/चल संपत्तियों का विवरणः	आवासीय संपत्ति फ्लैट/यूनिट नंबर, फी	निक्स-12ए-01,

12वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रॅंडस्टैंड नामक इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गीतमबुद्धनगर 201301 (यूपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सविधाएं हैं।

I	9512964	(कर्जदार) तथा श्री रूपेश कुमार रूपम (सह-कर्जदार)	रु. 29,31,1777- (रुपय उनतास लाख इकतीस हजार एक सौ सतहत्तर मात्र)	24.07.202
١	प्रतिभत आस्टि		    वासीय डकार्ड/फ्लैट नं. फीनिक्स 1109.	11वी मंजिल

प्रमस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमना ए क्सप्रेस वे, गीतमबद्धनगर (युपी) 201301 में स्थित, बिल्डर क्रेता अनुबंध में उल्लिखित सभी सुविधाओं

9602905	श्रा सत्य प्रकाश (कजदार) तथा श्रीमती खुशबु शर्मा	रु. 31,95,555/- (रुपय इकतास लाख पिचानबे हजार पांच सी पचपन	24.07.2023
	(सह-कर्जदार)	मात्र)	
Cercus and	Alle consiste and an alle of the consistence of the constant o	and in Carrier to a company of a reference and a company of a figure and a	Control Manager

व्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर डेट्रॉइट 904,9वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22 डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गीतम बुद्ध नगर 201301 (वृपी), बिल्डर क्रेता प्रमहीते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

रु. 31,63,449/- (रुपये इकतीस

24.07.2023

ह./-अधिकृत प्राधिकारी

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

	(कजदार) तथा श्रामता अलका जदली (सह-	लाख तरसठ हजार चार सा उनचास मात्र)	
9	कजदार)		
reference arefra	कों क्रांत गंगवियों का विकास	. आवासीय संगति सनिवस्त्रीय संगर सी	ari 1401 142

9679923

श्री सिद्धार्थ जदली

मॅजिल का समस्त भाग, माप 1295 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच–01, टीएस–01 वी, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्धनगर (यूपी) 201301 पर स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9538915		रु. 23,52,382/- (रुपये तेईस लाख बावन हजार तीन सौ बयासी मात्र)	24.07.2023
प्रतिभृत आरिर	त्यों/चल संपत्तियों का विवरणः	आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर ए	नट्री-1704,17वी

मॅजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में रिश्वत, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्धनगर-201301(यूपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

9531771 श्रा वा, कुमार उफ र विश्वनाथ कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती जयश्री ताक्षी (सह-कर्जदार)	ः 23,66,864/- (रुपय तहस लाख छियासठ हजार आठ सौ चौंसठ मात्र)	24.07.2023
--	--	------------

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय युनिट/फ्लैट नंबर मोंजा 801, 08वीं मंजिल का

समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस ये, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य

9630320		হ. 20,32,071/- (হ	24.07.2023
	श्रीमती सरस्वती उर्फ दुराई सरस्वती उर्फ	पये बीस लाख बत्तीस	The Control of the Co
	सरस्वती जगदीश सनैय्या दुरला (सह-	हजार इकहत्तर मात्र)	

मॉजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी. सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय युनिट/फ्लैट नंबर मोंजा 901, 09वी

"IMPORTANT"

www.readwhere.com

सजय यादव (निदेशक) डीआईएन: 05243541

अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

कृत्ते, पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 28.07.2023 स्थानः दिल्ली

लॉकर खोलने की सूचना

इत्यादि की वसली का कानुनी अधिकार बैंक के पास सरुक्षित होगा।

	22			
क.सं.	शाखा का नाम	लॉकर सं.	इस तारीख से देय है	नाम तथा पता
1	जनकपुरी शाखा	एस3 / 205		सुश्री टीना गुलाटी बी—32 टॉप फ्लोर गुजरावाला अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली—110018
		177		इस्ता /-

आईडीबीआई बैंक लि., जनकप्री शाखा स्थानः नई दिल्ली

П	उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता के नाम
	पते / ऋण खाता संख्या / ऋण
8	मैसर्स निरंकारी मसाला भण्डार, अपने
	प्राधिकृत व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद
	गुप्ता के माध्यम से एवं श्री राजेंद्र
	प्रसाद गुप्ता तथा श्रीमती मीना देवी,
	<b>सभी का पता</b> : मकान नंबर— 10210.
	गली नंबर — 320, संजय कॉलोनी,
	सेक्टर — 23, फरीदाबाद, हरियाणा —
	121005,
	ऋण खाता संख्या :
	LNDEL00616-170000526,
	संस्वीकत ऋण राशि : रु
	ו אולא וויאכ דומון אין אין וויאלי

दिनांकः 30.07.2023

10,50,000 / —(रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)

बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। | 29.08.2020 से लागू ब्याज। बंधककर्ता का नाम : श्री राजेंद्र गुप्ता (संपत्ति सं. 1), श्रीमती मीना देवी (संपत्ति सं. 2) दिनांक : 28-07-2023, स्थान : फरीदाबाद

गेट, दिल्ली-110006

07, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता

अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

टीवीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45200DL2012PTC235802) जिसका पंजीकत कार्यालय: एस-६ और ७. पंकज सें ट्रल मार्कें ट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी एक्सटें शन, नई दिल्ली—110092 में हैं, के मामले में ....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

के मामले में

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 3 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

एस-6 और 7, पंकज सेंट्रल मार्केट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी. एक्सटें शन, नई दिल्ली-110092 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

टीवीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / -विनाक: 27.07.2023 स्थान: नई दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

सीआईएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792

परिशिष्ट-IV-ए

अर्थात् https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

- 0	एवं राशि		के नाम		राशि	es,	(ऑनलाइन) को / पहले	समय	तिथि एवं समय	विवरण
1.	आईएनआर 64,36,791 / — दिनांक 13.11.2019 के अनुसार	2973551		संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि यूनिट नं. 18 से युक्त, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर एवं यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी—1, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली—110085	4,480,000 / -	आईएनआर 4,48,000 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	किशनीत कौर, संपर्क नंबर–
2.	आईएनआर 20,72,475.59 / — दिनांक 11.06.2021 के अनुसार		सलीक अहमद खान, गजला सलीक	दुकान सं. 611 के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि क्षेत्र माप 12.6344 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल एवं मेजानाइन तल इसके छताधिकारों के साथ समाहित है, जो गांधी क्लॉकथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— संपत्ति सं. 610 के साथ सामान्य सीढ़ी, गली कटरा रेवड़ी का रास्ता, संपत्ति सं. 613—14 के साथ सामान्य सीढ़ी; पश्चिम— इस दुकान का द्वार पालाफोर्म रास्ते के अंदर से कटरा अल्लह दिया नामेद से होकर गांधी क्लॉथ मार्किट से है; उत्तर— दुकान सं. 612 आम दीवाल; दक्षिण— शौचालय एवं स्नानागार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जो आम रास्ते के लिये सुरक्षित है।	2,664,000 / -	आईएनआर 2,66,400 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	9818130420 ईमेल आईडी- kishneet.kau @idfcfirstbar com

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. विदित दिनांक : 27-07- 2023 स्थान: दिल्ली

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

whatsoever.

Lucknow

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के मामले में तथा पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड -आवेदक

-प्रतिवादी कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली कार्यालय के पते के स्थानांतरण के संदर्भ में 25.07.2023 को इस समाचार पत्र मे आम जनता के लिये सूचना प्रकाशित की गई थी। कृपया सही स्थानांतरित कार्यालय का पता इस प्रकार पढ़ें: ठाकर टावर, 1ला तल, 109, प्लॉट नं. 86, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुम्बई-400705, महाराष्ट्र, भारत। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

कृत्ते, पीआई लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 28.07.2023 पल्या वैंकटरामण रवि प्रसाद स्थानः दिल्ली निदेशक (DIN:01296821) 1ला तल. हरवंश भवन-1. डीडीए बिजनेस कॉम्प्लैक्स. नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दिल्ली



दिनांकः 30.07.2023

LNDEL00616-170000526,

संस्वीकृत ऋण राशि : रु.

10,50,000 / — (रुपये दस लाख

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जनकपुरी शाखा, नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,

सीचत किया जाता है कि हमार विभिन्न नाटिसा एवं मांगा के बाद भी हमार जनकप शाखा के लॉकर धारक निम्नलिखित लॉकर के निर्धारित किराये का भगतान नहीं कर पाएं हैं। नियम एवं शर्तों के अनुसार बैंक के पास लॉकर किराए का भूगतान न करने पर उक्त लॉकर को तोड कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। तदनुसार, इन सभी कार्रवाइयों से बचने के लिए नियत तारीख से पहले लॉकरधारक सबंन्धित शाखाओं में आवदेन कर बकाए का भूगतान कर सकते हैं। अन्यथा सभी नियमों के साथ 30 अक्टूबर 2023 को लॉकर तोड़ कर खोला जाना प्रस्तावित है। लॉकर तोड़ कर खोलने का शुल्क किराएदारों द्वारा वहन किया जाएगा तथा बकाया किराया एवं अन्य खर्चों इत्यादि की वसुली का कानुनी अधिकार बैंक के पास सरुक्षित होगा।

क.सं.	शाखा का नाम	लॉकर सं.	इस तारीख से देय है	नाम तथा पता
1	जनकपुरी शाखा	एस3 / 205		सुश्री टीना गुलाटी बी—32 टॉप फ्लोर गुजरावाला अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली—110018
	2.5	7.0		हस्ता./-,

आईडीबीआई बैंक लि., जनकप्री शाखा स्थानः नई दिल्ली

कोटक महिद्रा बैक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 27बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051, शाखा कार्यालय : 7वां तल, भूखंड सं.–7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तिय

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त सूचनाओं में अंकित राशि का, भूगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शूल्कों और व्ययों के साथ, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) / सह—उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षित्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन-देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, वहां उसमें अर्थात सचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों से आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतू कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों को छंडवाने के लिए उपलब्ध समय के

संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, ध अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहां इ	ो उप—धारा (8) के प्रावधानों गरा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित म समें नीचे दिए गए हैं:	की ओर आमंत्रित वि	केया जाता है। उधारकर्ताओं
उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता के नाम पते/ऋण खाता संख्या/ऋण	91-101 (1110)		तेथि 2. अधिग्रहण का प्रकार थे 4. बकाया देयराशि रु. में
मैसर्स निरंकारी मसाला भण्डार, अपने प्राधिकृत व्यक्ति श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के माध्यम से एवं श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता तथा श्रीमती मीना देवी, सभी का पता: मकान नंबर— 10210, गली नंबर— 320, संजय कॉलोनी,	संपत्ति सं: 1, भूमि क्षेत्रफल नंबर 33, किला नंबर किला नं 18/1/9, 8/1/10, 18/ 18/1/28, 18/1/29, 18/ 18/2/1, 18/2/2, 18/ शामिल जो मौजा गौछी, तहर्स	बर 13/20, 13/21, 1/22, 18/1/23, /1/12, 18/1/13, 2/6, 18/2/9 में ोल बल्लभगढ़ जनपद	1. 25.07.2023 2. भौतिक अधिग्रहण 3. 28–08–2020 4. रु. 12,85,882 / – (रुपये बारह लाख पिचासी हजार आठ सौ बयासी मात्र) 28.
सेक्टर — 23, फरीदाबाद, हरियाणा — 121005, ऋण खाता संख्या :	फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित प्लॉट नंबर 7, क्षेत्रफल 50 वर्ग 32 / /23 में आमिल मी	गिज, जो खसरा सं.	08.2020 तक देय और भुगतानयोग्य साथ में पूर्ण

पचास हजार मात्र) 2023, स्थान : फरीदाबाद कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पूछताछू के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल + (%1 9910563402) तथा दिनांक : 28–07–2023, स्थान : फरीदाबाद श्री नकुल गुप्ता +(91 8700867857) से संपर्क करें।

1), श्रीमती मीना देवी (संपत्ति सं. 2)

बंधककर्ता का नाम : श्री राजेंद्र गुप्ता (संपत्ति सं.

बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। 29.08.2020 से लागू ब्याज।

### AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED कार्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम"

तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरी ने, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के तहत और अधिनियम की धारा 13 (12) साथ पिठत नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी का तर्काधार पर मानना है कि कर्जदारा मांग सूचना(एं) प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए सूचना की तामील नियमों के अनुसार इसे चस्पा करने और इसके प्रकाशन द्वारा की करवायी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषय सामग्री यहां नीचे संक्षेप में दी गई है:

कजदार(रा) का नाम	माग सूचना ।ताथ शाश							
	21—07—2023 रू. 36,86,852.69 / — (रूपए छत्तीस लाख छियासी हजार आठ सौ बावन तथा पैसे उनहत्तर मात्र) 10—07—2023							
अचल सम्पत्ति/बंध	क सम्पत्तियों का वर्णन							

मनोहर मैन्सन के अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर कॉमर्शियल शॉप प्राइवेट नंबर 08, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, क्षेत्रफल परिमाप 119.56 वर्ग फीट लगभग, सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 123 पर निर्मित, प्रवेश सम्पत्ति सं. 152 से होकर, स्थित वार्ड नंबर 8, बाजार अजमेरी गेट, दिल्ली-110006

प्रतिभूत आस्तियों की चौहद्दी : पुरब : शॉप प्राइवेट नंबर 09, पश्चिम : शॉप प्राइवेट नंबर 07, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता

कर्जदार(रों) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और उसमें तथा यह ऊपर वर्णित मांग राशि का भूगतान, भूगतान प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शूल्क लागत और व्यय सहित, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें। कर्जदार ध्यान दें कि एएफपीएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा, उन अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है, जो कर्जदार(रों) द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति(यां) हैं। यदि कर्जदार निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएफपीएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभृत संपत्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगी, जिसमें अधिनियम और उसमें विरचित नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने द्वारा अथवा बिक्री के माध्यम से उसका हस्तांतरण करना सम्मिलित है, लेकिन इसके अलावा भूगतान भी वसूल कर सकती है। एएफपीएल, बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को कुर्क और / या सील करने के लिये भी अधिकारसंपन्न है। प्रतिभूत संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, एएफपीएल की बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, ऐसा वह तब कर सकती है यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य एएफपीएल को देय राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय अतिरिक्त है और किसी भी अन्य कानून के तहत एएफपीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों से अलग है। कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत संपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकष्ट किया जाता है, जिसके आधार पर कर्जदार(रों) को एएफपीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या उसके लेनदेन या बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अलावा) स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित / निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दंडनीय अपराध है। मांग सचना की प्रति, अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि वे चाहें तो. किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान

अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दिनांकः 28-07-2023, स्थानः दिल्ली हस्ता./- प्रशांत ओहल प्राधिकृत अधिकारी एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 12th June, 2023 the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



### **CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED**

Cressanda Solutions Limited (CIN: L51900MH1985PLC037036) was incorporated on August 05, 1985, under the Companies Act, 1956 in the name and style as "Cressanda Commercial and Financing Limited" as a Public Limited company in the State of Maharashtra. The Company obtained the Certificate of Commencement of Business on September 04, 1985 from the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. The Company changed its name from \*Cressanda Commercial and Financing Limited" to "Cressanda Solutions Limited" and a fresh Certificate Incorporation was issued by the Registrar of Companies on August 07, 2002.

> Registered Office: No. 312A, Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676

> Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer E-mail Address: cressanda123@gmail.com / info@cressanda.com | Website: www.cressanda.com

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

PROMOTERS OF OUR COMPANY IS SMART INFRAPROPERTIES PRIVATE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 2.46.49.206 (TWO CRORES FORTY SIX LACS FORTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED AND SIX) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE 'RIGHTS EQUITY SHARES') FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20/- (RUPEES TWENTY ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19/- (RUPEES NINETEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 4,950/- LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 (SIX) RIGHT EQUITY SHARE FOR EVERY 97 (NINETY SEVEN) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON JUNE 16, 2023 (THE 'ISSUE'). THE RIGHTS ISSUE PRICE IS 20 (TWENTY) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

#### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Cressanda Solutions Limited, wish to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, 27th June, 2023, and closed on Tuesday, 11th July, 2023, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, 05th July, 2023.

The details of Applications received, is scheduled as under:

	1000000000	ASBA Applications					Rejection						
Parti- culars	Total Applications received	Appli- cation Banked but not in bid data file	Dupli- cate entries 1Not banked	Shares Diffe- rence	Valid ASBA applications (A)	Mul- tiple Appli- cation	Not an Eligible Equity Share- holders of the Company	Application Through Third Party Bank Account	PAN Mis- match	Applica- tion with Zero Entitle- ment	Applica- tion with invalid DP-ID I CLIEN-ID	Total Paticulars of Reje- ction (B)	Net Valid Applications (C)
Number of Appli- cations received	2544	3	0	0	2,541	0	539	0	7	9	32	587	1,954
Number of Right Shares applied for	4,45,56,152	380	0	0	4,45,55,772	0	18,54,911	0	26,165	11,823	2,01,292	20,94,191	4,14,07,517
Total Amount received	44,55,61,520.00	3800.00	0	0	44,55,57,720.00	0	18,54,9110	0	2,61,650.00	1,18,230.00	20,12,920	2,09,41,910	41,40,75,170.00

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Monday, 17th July, 2023, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and the BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Company on Monday, 17th July, 2023, made allotment of 2,46,49,206 (Two Crores Forty Six Lacs Forty Nine Thousand Two Hundred and Six) partly paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment:

Category	Applica receiv	MYNYOEDAG	Number of Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlements (A)			and A	quity Shares Acc Motted against I Rights applied		Total Rights Shares Accepted and Allotted (A41)		
	Number	%	Number	Amount	%	Number	Amount	%	Number of Rights Shares	Amount	%
Eligible Shareholders	1,846	94.47	26,30,374	2,63,03,740	77.61	2,12,59,833	21,25,98,330	100	2,38,90,207	23,89,02,070	96.92
Renounce.	156	5.53	7,58,999	75,89,990	22.39	0	0	0	7,58,999	75,89,990	3.08
Total	1,954	100	33,89,373	3,38,93,730	100	2,12,59,833	2,12,59,833	100	2,46,49,206	24,64,92,060	100

the investors vide email has been completed on 17th July 2023. The instructions to Kotak Mahindra Bank Limited ("Bankers to the Issue") to SCSBs for the unblocking fund in case of ASBA Applications were given on 17th July 2023. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on 26th July, 2023. In accordance with the SEBI circular bearing reference number 'SEBINOCED/DIL2/CIR/P/2020/13' dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on 26th July 2023.

DECLAIMER CLAUSE OF USE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer.

Skyline

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED D 153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020, India

REGISTRAR TO THE ISSUE

Tel: +91 011 - 40450193-97 E-mail: ipo@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com SEBI Registration No: INR000003241 Contact Person: Mr. Anuj Rana

Cressanda CRESSANDA SOLUTIONS LIMITED No. 312A. Embassy Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India. Contact Number: +91 81692 45676 E-mail Address: cressanda123@gmail.com, info@cressanda.com Website: www.cressanda.com Contact Person: Ms. Priya Pritesh Agarwal (Company Secretary and Compliance Officer)

ISSUER COMPANY

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

> For Cressanda Solutions Limited On Behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai Date: 27.07.2023

Ms. Priya Pritesh Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'US Securities Act') or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include person who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(13) or Rule 902(K)(2)(I), except pursuant to the exemption from, or in transaction not subject to, the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulations to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the state of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable except in accordance with the restrictions.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) सीआईएनः एल65110टीएन2014पीएलसी097792

प्राधिकृत अधिकारी– किशनीत कौर, संपर्क नंबर– 9818130420, ई–मेल : kishneet.kaur @idfcfirstbank.com

IDFC FIRST

9679923

तिथि : 28.07.2023

स्थान : नोएडा (दिल्ली रा.स.क्षे.)

श्री सिद्धार्थ जदली

पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031, दूरभाषः +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV-ए

(नियम ८(६) का प्रावधान देखें)

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के

विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में स्तंभ (iv) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) तथा सह—ऋणकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित स्तंभ (v) के अनुसार निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक अधिग्रहण, पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात, के

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय **25—08—2023** को **''जैसी हैं जहां हैं'', जैसी हैं जो हैं'' और ''वहां जो कुछ भी हैं''** आधार पर किया जाएगा, जो कि स्तंभ (पअ) के अनुसार ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) की ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के रूप में अभिज्ञात, को देय—भुग्तेय बकाया राशि की वसली हेतु किया जाएगा। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात् https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

क्र. सं.	मांग सूचना तिथि एवं राशि	ऋण	ऋणकर्ता(ओं) एवं सह—ऋणकर्ता(ओं) के नाम	संपत्ति पता	आरक्षित मूल्य राशि	धराज राशि	धराज एवं प्रलेख जमा की अंतिम तिथि एवं समय (ऑनलाइन) को / पहले	नीलामी की तिथि एवं समय	संपितत के निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी के विवरण
1.	आईएनआर 64,36,791 / – दिनांक 13.11.2019 के अनुसार		आर जे एस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, चंद्र कांत (राज वर्द्धनभगत के विधिक उत्तराधिकारी)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि यूनिट नं. 18 से युक्त, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर एवं यूनिट नं. 19, माप 17.90 वर्ग मीटर, मेजानाइन क्षेत्रफल 18.36 वर्ग मीटर, जीएफ एवं एमई 22, सीएससी—1, सेक्टर—3, रोहिणी, दिल्ली, नई दिल्ली—110085	4,480,000 / -	आईएनआर 4,48,000 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	किशनीत कौर, संपर्क नंबर—
2.	आईएनआर 20,72,475.59 / — दिनांक 11.06.2021 के अनुसार	9951315	सलीक अहमद खान, गजला सलीक	दुकान सं. 611 के समस्त वह भाग तथा अंश, भूमि क्षेत्र माप 12.6344 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल एवं मेजानाइन तल इसके छताधिकारों के साथ समाहित है, जो गांधी क्लॉकथ मार्किट, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व— संपत्ति सं. 610 के साथ सामान्य सीढ़ी, गली कटरा रेवड़ी का रास्ता, संपत्ति सं. 613—14 के साथ सामान्य सीढ़ी; पश्चिम— इस दुकान का द्वार पालाफोर्म रास्ते के अंदर से कटरा अल्लह दिया नामेद से होकर गांधी क्लॉथ मार्किट से है; उत्तर— दुकान सं. 612 आम दीवाल; दक्षिण— शौचालय एवं स्नानागार, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म जो आम रास्ते के लिये सुरक्षित है।	2,664,000 / —	आईएनआर 2,66,400 / —	24.08.2023 को 5.00 बजे तक	25.08.2023 को 11.00 से 1.00 बजे	18.08.2023 को 11.00 से 4.00 बजे	9818130420, ईमेल आईडी— kishneet.kaur @idfcfirstbank com

अस्वीकरण : कुपया ध्यान दें कि उक्त सूचना जो है वह केवल अचल संपत्ति के विक्रयार्थ निर्गत है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पास अचल संपत्ति पर विद्यमान चल परिसंपित्तियों, यदि कोई, का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लि. विदित (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड एवं कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

#### THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002 Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943

Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458 Email: nationalheralddelhi@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (लागू परिपन्नों) के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 85वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरूवार, 24 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार) विडियो कॉन्क्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को ई-मेल के माध्यम से मेजने का कार्य गुरूवार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

के नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') और एजीएम के दिन

ई-वोटिंग के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित शेयरों के आनुपातिक होगा। एजीएम में ई-बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर

या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही सदस्य एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। एजीएम की सूचना को कंपनी की वेबसाइट https://www.nationalheraldindia.com/corporate-governance/agm पर और एलआईआईपीएल की वेबसाइट http://instavote.linkintime.co.in पर भी रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के शेयर एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद अधिगृहित किए है और कंपनी का सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि पर जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, वह instavote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या फोन नं. 022-49186000 पर अनुरोध के

माध्यम से लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत हैं तो वह अपना वर्तमान यूजर आईढी एवं पासवर्ढ का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 अगस्त, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंभ

होगी और बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को साथं 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बंद होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे सकते हैं। 23 अगस्त, 2023 को साथ 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई—वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प

अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को encices@inkinime.co.in पर ई-मेल के माध्यम से लिखें या फोन नं. 022-49186000 पर सम्पर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान वोटिंग के माध्यम से अपना वोट

सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का

कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पवन कुमार बंसल

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशिक

DIN: 09015697

स्थानः नई विल्ली विधिः 27.07.2023

देने की प्रक्रिया को भली-भांति पढ लें।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वी मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसूला बिजिनेस पार्क, गणपतगव कदम **TATA** मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम s(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहरताक्षरी वितीय आरितयों के प्रतिभतिकरण एवं पनगंटन तथा प्रतिभति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त प्रक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भृगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी

दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर व्याज और नीचे दल्लिखन निधि से दण्डात्मक रुपाय. प्रभारों, लागनों आदि के लिए टाटा कैपिटल हादसिंग फाइनेंस लिपिटेड के

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे की तिथि
9746277	श्री अनिकेत प्रकाश (कर्जदार) तथा श्री ऋषिकेश प्रकाश (सह-कर्जदार)	रु. 24,69,643/- (रुपये चौबीस लाख दनहत्तर हजार छः सौ तैतालीस मात्र)	24.07.2023

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः युनिट/फ्लैट नंबर फीनिक्स 1610, 16वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में रिश्वत, जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सविधाओं के साथ

9522905	श्री अनुराग जैन (कजंदार) तथा श्रीमती वर्तिका जैन	रु. 29,90,480/- (रुपये उनतीस लाख नब्बे हजार चार सी अस्सी मात्र)	24.07.2023
	(सह-कर्जदार)	TO THE STATE OF TH	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर वालेंसिया-1708,17वीं मंजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (यूपी), विरुटर

खरादार समझ	ति के तहत सभी सामान्य सुविधा	આ જા સાચા	
9639072	श्रीमती कनु प्रिया (कर्जदार) तथा श्री शाश्वत चौरसिया (सह-कर्जदार)	रु. 26,47,882/- (रुपये छव्यीस लाख सँतालीस हजार आठ सौ वयासी मात्र)	24.07.2023

व्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर, फीनिक्स-12ए-01, ।2वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड नामक इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गीतमबुद्धनगर 201301 (यूपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

9512964	श्रीमती रूबी तबस्सुम (कर्जदार) तथा श्री रूपेश कुमार रूपम (सह-कर्जदार)	रु. 29,31,177/- (रुपये उनतीस लाख इकतीस हजार एक सौ सतहत्तर मात्र)	24.07.202
	कुमार रूपम (सह-कर्जदार)	सतहत्तर मात्र)	

प्रतिभत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय इकाई/फ्लैट नं, फौनिक्स 1109, 11वीं मंजिल का प्रमस्त भाग, माप 845 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस वे. गीतमबद्धनगर (युपी) 201301 में स्थित, बिल्डर क्रेता अनुबंध में उल्लिखित सभी सुविधाओं के साथ।

9602905	श्री सत्य प्रकाश (कजदार) तथा श्रीमती खुशबु शर्मा	रु. 31,95,555/- (रुपयं इकतास लाख पिचानवे हजार पांच सौ पचपन	24.07.2023
	(सह-कर्जदार)	मात्र)	
Section of	A	CONTRACTOR CONTRACTOR PROGRAMMENT	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर डेटॉइट 904,9वीं मॉजिल का समस्त भाग, माप 995 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहर इमारत में स्थित, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर - 22 डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गीतम बृद्ध नगर 201301 (वृपी), बिल्डर क्रेता प्रमहीते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

रु. 31,63,449/- (रुपये इकतीस

24.07.2023

ह./-अधिकृत प्राधिकारी

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Lucknow

	(कजदार) तथा श्रामता अलका जदली (सह- कर्जदार)	लाख तरसठ हजार चार सा उनचास मात्र)			
1	विभव आदिवर्षे जल संपनियों का विवरण-	आवासीय संपत्ति यतिर फ्लैर नंबर सीः	सर्व १	601	1678

मॅजिल का समस्त भाग, माप 1295 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच–01, टीएस–01 वी, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्धनगर (यूपी) 201301 पर स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

9538915		रु. 23,52,382/- (रुपये तेईस लाख बावन हजार तीन सौ बयासी मात्र)	24.07.2023
प्रतिभृत आरिर	त्यों/चल संपत्तियों का विवरणः	आवासीय संपत्ति फ्लैट/युनिट नंबर ए	नट्री-1704,17वी

मॅजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड के नाम से मशहूर इमारत में रिश्वत, जीएच-01, टीएस-01 बी, सेक्टर-22डी, यमना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्धनगर-201301(वृपी), जिसमें बिल्डर क्रेता समझौते के तहत सभी सामान्य सुविधाएं हैं।

9531771	श्री वी. कुमार उर्फ	रु. 23,66,864/- (रुपये तेईस लाख	24 07 2023
0001111	विश्वनाथ कमार (कर्जदार)	छियासठ हजार आठ सौ चौंसठ	24.07.2020
	तथा श्रीमती जयश्री ताशी	मात्र)	
	(सह-कर्जदार)	100000	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरणः आवासीय युनिट/फ्लैट नंबर मौजा 801, 08वीं मौजल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी, सेक्टर-22डी, यमुना ए क्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य

9630320	श्री विश्वनाथ ईश्वरन (कर्जदार) एवं	হ. 20,32,071/- (হ	24.07.2023
	श्रीमती सरस्वती उर्फ दुराई सरस्वती उर्फ	पये बीस लाख बत्तीस	524769440469656
	सरस्वती जगदीश सनैय्या दुरला (सह-	हजार इकहत्तर मात्र)	

प्रतिभृत आस्तियों/चल संपत्तियों का विवरण: आवासीय युनिट/फ्लैट नंबर मोंजा 901, 09वी मॉजिल का समस्त भाग, माप 695 वर्ग फीट, ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, जीएच-01, टीएस-01/बी. सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेस वे, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिल्डर क्रेता समझौते में उल्लिखित अन्य सभी सुविधाओं के साथ।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

www.readwhere.com

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते एस-6 और 7, पंकज सेंट्रल मार्केट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी. एक्सटें शन,

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनसरण में }

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

टीवीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45200DL2012PTC235802)

जिसका पंजीकत कार्यालयः एस–6 और 7, पंकज

सें ट्रल मार्कें ट, प्लेटो पब्लिक स्कूल के पास, आई.पी

एक्सटें शन, नई दिल्ली—110092 में हैं, के मामले में

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

नई दिल्ली-110092 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से टीबीएस्टार इंफ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड

विनाक: 27.07.2023 सजय यादव (निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन: 05243541

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 27-07- 2023

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 3 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल